



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2011/पौष 28, 1932

No. 27]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2011/PAUSA 28, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 35(अ)/आ.व./चीनी. - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**

(क) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (2010-11 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 है।

(ख) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं :**

इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "भारतीय चीनी मानक ग्रेड (भा0ची0मा0 ग्रेड्स) " श्रेणियों से निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर द्वारा जारी की गई बोतलों में चीनी के मानक मोहरबंद नमूनों द्वारा निरूपित श्रेणियां अभिप्रेत हैं, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एम-29, एस-29, एल-30, एम-30, एस-30, एल-31, एम-31, एस-31 तथा एस.एस.31 मानकों के अनुरूप हैं।

(ख) "अनुसूची " का इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

### 3. 2010-11 मौसम में उत्पादित चीनी की कीमत:

स्तम्भ 2 में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट जोनों के प्रति अनुसूची-1 अथवा अनुसूची-2, जैसी भी स्थिति हो, के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट मूल्य सभी भारतीय चीनी मानक (भा0ची0मा0) श्रेणियों की उस चीनी के लिए देय मूल्य होंगे, जो "ए" टिवल नए टाट के बोरो में पैक हैं और अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट सभी निर्यात कड़ाह चीनी कारखानों द्वारा 2010-11 में उत्पादित की गई है, जिसे लेवी चीनी प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1979 के खंड-2 के उपखंड-(1) के अधीन किसी व्यक्ति, संगठन या राज्य सरकार को क्रेता के विकल्प पर (i) रेल वैगनों में या (ii) क्रेता की गाड़ियों/लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में कारखानों के द्वारा या कारखाने के गोदाम में परिदान के लिए प्रदत्त करना अपेक्षित है।

परन्तु, जहां कोई चीनी कारखाना निकटतम रेलवे स्टेशन या रेल के किसी बाहरी अभिकरण से या कारखाने के बाहर गोदाम से जिसका रेल सम्पर्क नहीं है, पांच किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, वहां उत्पादक रेल द्वारा माल भेजे जाने की दशा में चीनी कारखाने और ऐसे रेल स्टेशन के बाहरी अभिकरण के बीच या गोदाम के द्वार पर परिदान की दशा में चीनी कारखाने और ऐसे गोदाम के बीच पांच किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए प्रति क्विंटल चीनी पर प्रति किलोमीटर तेरह पैसे की दर से अतिरिक्त प्रभार ले सकेगा।

**स्पष्टीकरण - इस आदेश में :**

(क) अनुसूची-1 और 2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क अथवा विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या विशेष उत्पाद शुल्क जैसा भी मामला हो, जिसकी वसूली उत्पादक, सुसंगत समय पर प्रवृत्त दर पर, इसी आदेश द्वारा अवधारित कीमतों के अतिरिक्त कर सकेगा;

(ख) अनुसूची-1 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत कारखाने के गोदाम में परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर रेल स्टेशन या उत्पादक द्वारा साधारणतः उपयोग किए जाने वाले साइडिंग पर रेल वैगनों में लदाई का खर्च भी है और उनमें साइडिंग या वैगन कर्षण निभार (डनेज) और अन्य आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित हैं।

(ग) अनुसूची-2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमतों के अंतर्गत कारखाने के गोदामों में परिवहन का और क्रेता के विकल्प पर चीनी की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों में कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में लदाई खर्च भी है उनमें अन्य सभी आनुषंगिक व्यय भी सम्मिलित हैं।

4. इस आदेश के अंतर्गत निर्धारित मूल्य चीनी मौसम 2010-11 में उत्पादित चीनी पर और चीनी मौसम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 1 अक्टूबर, 2010 को अथवा इसके बाद परिदान की गई चीनी पर लागू होंगे। ये अनंतिम मूल्य हैं। किसी प्रकार का अधिक भुगतान, यदि कोई हो, करने के कारण रिकवरी अथवा अतिरिक्त भुगतान, यदि देय हो, मूल्यों को अंतिम रूप देने पर किया जाएगा।

### अनुसूची -I

कारखाने से 5 किलोमीटर की दूरी तक अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट कारखाने के बारे में भा0ची0मा0 श्रेणियों के लिए रेल डिब्बों में परिदान की दशा में कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)।

क्रम संख्या जोन

(रूपये प्रति क्विंटल )

अखिल भारतीय चीनी मानक  
(ए0आई0एस0एस0)चीनी का ग्रेड

(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	1915.58
2.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड	1,783.55
3.	बिहार(उत्तर)	2,053.58
4.	गुजरात (दक्षिण)	1,745.67
5.	गुजरात (सौराष्ट्र)	1,962.56
6.	हरियाणा	1749.55
7.	पश्चिमोत्तर कर्नाटक	1881.42
8.	शेष कर्नाटक	1794.52
9.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	2,049.29
10.	मध्य प्रदेश	1908.07
11.	महाराष्ट्र (दक्षिण)	1,835.94
12.	महाराष्ट्र (उत्तर)	1,853.19
13.	महाराष्ट्र (केन्द्रीय)	1,813.41
14.	पंजाब	1797.36
15.	राजस्थान	2011.37
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1,880.11
17.	उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय)	1,902.45

18. उत्तर प्रदेश (पूर्व) 1,918.75

19. उत्तर प्रदेश (पश्चिम) 1,834.17

नोट:- जहां रेलवे स्टेशन फैक्ट्री से 5 किलोमीटर से अधिक है चीनी के लिए प्रति किलोमीटर 0.13 प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि का धुंधला किया जाएगा।

### अनुसूची- II

अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट कारखानों के बारे में सभी भा0ची0मा0 श्रेणियों के लिए क्रेता की गाड़ियों, लारियों या परिवहन के अन्य साधनों से कारखाने के द्वार पर/कारखाने के गोदाम में, परिदान की दशा में कीमतें (उत्पाद शुल्क रहित)

(रूपये प्रति क्विंटल )

क्रम संख्या	जोन	अखिल भारतीय चीनी मानक (ए0आई0एस0एस0)चीनी का ग्रेड
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	1914.01
2.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड	1,781.98
3.	बिहार (उत्तर)	2,052.01
4.	गुजरात (दक्षिण)	1,744.10
5.	गुजरात (सौराष्ट्र)	1,960.99
6.	हरियाणा	1747.98
7.	पश्चिमोत्तर कर्नाटक	1879.85
8.	शेष कर्नाटक	1792.95
9.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	2,047.72
10.	मध्य प्रदेश	1906.50
11.	महाराष्ट्र (दक्षिण)	1,834.37
12.	महाराष्ट्र (उत्तर)	1,851.62
13.	महाराष्ट्र (केन्द्रीय)	1,811.84
14.	पंजाब	1795.79
15.	राजस्थान	2009.80
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	1,878.54
17.	उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय)	1,900.88
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,917.18
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,832.60

## अनुसूची- III

क्रम सं०	चीनी फैक्ट्री का नाम और उसका स्थान
1.	2.

**आन्ध्र प्रदेश**

1. किरलामपुडी शुगर मिल्स लिमिटेड, पो०आ० पोथपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी
2. श्री सरवारया शुगर मिल्स लिमिटेड, पो०आ० चेल्लूर, तालुका रामचन्द्रपुरम, जिला ईस्ट गोदावरी
3. नवभारत फेरो अलायज लिमिटेड, समालकोट, जिला ईस्ट गोदावरी
4. आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड, टनकू, जिला ईस्ट गोदावरी
5. दि पालाकोल कोआपरेटिव शुगर लिमिटेड, पूलारेल्ली, पाला कोल, जिला वेस्ट गोदावरी
6. वी०वी०एस० शुगर्स (दि जयपोर शुगर कं० लिमिटेड) पो०आ० चागल्लू, जिला वेस्ट गोदावरी
7. वेस्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, भीमाडोल, तालुका इलुरु, जिला वेस्ट गोदावरी
8. दि आन्ध्र शुगर्स लिमिटेड, डुवई, जिला वेस्ट गोदावरी
9. चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, गोवाडा, जिला विशाखापत्तनम
10. अनकापल्ले कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, अनकापल्ले, जिला विशाखापत्तनम
11. इतिकोप्पका कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, इतिकोप्पका, जिला विशाखापत्तनम
12. दि थांडवा कोआपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, पयाकारपोपेटा, जिला विशाखापत्तनम
13. श्री विजयराम गजपति कोआपरेटिव शुगर लिमिटेड, कुमारम, ता० श्रृंगवारपुकोटा, भीमसिंघी, जिला विशाखापत्तनम
14. अमदालवालसा कोआपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड, पो०आ० अमदालवालसा, जिला श्रीकाकुलम
15. वरालक्ष्मी शुगर्स लिमिटेड, रगीडी में संकली अमदालवालसा मंडल, जिला श्रीकाकुलम
16. दि के०सी०पी० शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड, वय्यरू, जिला कृष्णा
17. दि के०सी०पी० शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज कार्पो. लिमिटेड, लक्ष्मीपुरम, जिला कृष्णा
18. डेल्टा शुगर्स लिमिटेड, हनुमान जंक्शन, जिला कृष्णा
19. निजाम दक्कन शुगर लिमिटेड, शंकरनगर, जिला निजामाबाद

20. दि निजामाबाद कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, निजामाबाद, जिला निजामाबाद
21. गायत्री शुगरस लिमिटेड, अदलूर येल्लीरेड्डी, सदाशिवनगर मंडल, जिला निजामाबाद
22. द चित्तूर कोआपरेटिव शुगरस फैक्ट्री लिमिटेड, चित्तूर, पो0आ0 तसवातेपल्ली, जिला चित्तूर
23. श्री वेंकटेश्वर कोआपरेटिव शुगरस फैक्ट्री लिमिटेड, गजुलामण्डयम (तिरुपति), रेनीगुंटा, जिला चित्तूर
24. श्री वाणी शुगरस एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुमारनाथम, जिला चित्तूर
25. प्रूडेंशियल मौली शुगरस लिमिटेड, निंदरा गांव, तहसील निंदरा मंडल, जिला चित्तूर
26. सुदालगुन्टा शुगरस लिमिटेड, बुचीनायडू, कन्डीगरा, जिला चित्तूर
27. मै0 ट्रिडेंट शुगरस लि0, मधुनगर, तालुका जहीराबाद, जिला मेढक
28. श्री निजाम दक्कण शुगरस लिमिटेड, तालुका और जिला मेढक
29. श्री गणपति शुगरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुलुबगुर संगरेड्डी मंडल, जिला मेढक
30. निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, तालुका मिरयालगुडा, जिला नालगोंडा
31. दि कुडप्पा कोआपरेटिव शुगर लिमिटेड, तालुका दौलतपुरम, जिला कुड्डापाह
32. दि कोवूर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, कोवूर, जिला नेल्लौर
33. गायत्री शुगर काम्प्लैक्स लिमिटेड, प्रभागिरी पतनम, पोडालकुर मंडल, जिला नेल्लौर
34. इम्पी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, अय्यपारेड्डी पालेम, नायडुपेट मंडलम, जिला नेल्लौर
35. निजाम दक्कण शुगर लिमिटेड, पो0आ0 मैटपल्ली, जिला करीमनगर
36. नन्दयाल कोआपरेटिव शुगरस लिमिटेड, पो0आ0पोन्नापुरम, नन्दयाल, जिला कुरनूल
37. क्रेब्स बायोकेमिकल्स एंड (आई) लि0, जिला गुंटूर
38. दि नागार्जुन कोआपरेटिव शुगरस लिमिटेड, गुरुजाला, जिला गुंटूर
39. मधुकौन शुगरस लिमिटेड, राजेश्वरपुरम, जिला खम्माम
40. ककतिया सीमेंट शुगरस एंड (आई) लिमिटेड, पेरुवंचा, तह0 कल्लूर मंडल, जिला खम्माम
41. एन.सी.एस. शुगरस लिमिटेड, पो0बा0 1, खैराताबाद, हैदराबाद, (लक्ष्म्यापेटा जिला विजयनगरम में स्थित), जिला विजयनगरम
42. सागर शुगरस एंड एलायड प्रोडैक्टस लि0, नेलावोय गांव, श्री रंगारानापुरम मंडल, जिला चित्तूर
43. मै0 जीएसआर शुगर (प्रा0) लि0, माग्गी, निजामनगर, कंडल, जिला निजामाबाद

**असम**

1. दि असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 बरुआबामुगांव, जिला शिवसागर
2. कचर शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 रतवाड़ी, चारगोला, जिला करीमगंज
3. नवगांव कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कामपुर, जिला नवगांव

**उड़ीसा**

1. जयपुर शुगर कं0 लिमिटेड, पो0आ0 रायागढ़, जिला कोरापुट
2. दि अस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पो0आ0 अस्का, जिला गंजम
3. दि बारागढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 तोरा, जिला सम्बलपुर (पोन्नी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध के अधीन)
4. नयागढ़ शुगर काम्पलैक्स लिमिटेड, तहसील नयागढ़, जिला पुरी
5. बादम्बा कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (शक्ति शुगर लिमिटेड के प्रबंध के अधीन) तहसील बांकी, जिला कटक
6. वैस्टर्न इंडिया शुगर्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धरमगढ़, तहसील धरमगढ़, जिला कालाहांडी
7. बिजयानन्द कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 सागरपल्ली, देवगाउ, जिला बोलांगीर
8. शक्ति शुगर्स लिमिटेड, हरिपुर, गांव धनकनाल सदर, जिला धनकनाल

**पश्चिम बंगाल**

1. खेतान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लासी, जिला नादिया
2. वेस्ट बंगाल शुगर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 अहमदपुर, जिला बीरभूम

**बिहार(उत्तरी)**

1. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लोहाट, जिला मधुबनी
2. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, सकरी, जिला मधुबनी
3. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट रयाम, जिला दरभंगा

4. न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड, हसनपुर रोड, पो0आ0 हसनपुर शुगर मिल्स, जिला समस्तीपुर
  5. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर
  6. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर
  7. रीगा शुगर कं0 लिमिटेड, रीगा, जिला सीतामढ़ी
  8. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट गरोल, जिला वैशाली
  9. मोतीहारी चीनी उद्योग लिमिटेड, लीज ऑफ मैसर्स ईस्टर्न शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोतीहारी, जिला पूर्वी चम्पारन
  10. मोतीलाल पदमपत उद्योग लिमिटेड, मझोलिया, जिला वेस्ट चम्पारन
  11. चम्पारन शुगर कं0 लिमिटेड, चनपतिया, जिला वेस्ट चम्पारन
  12. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लौरिया, जिला वेस्ट चम्पारन
  13. तिरूपति चीनी मिल्स लिमिटेड, बगहा, नारायणपुर, जिला वेस्ट चम्पारन
  14. दि अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, जिला नरकटियागंज, वेस्ट चम्पारन
  15. हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड, हरिनगर, जिला वेस्ट चम्पारन
  16. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, सुगौली, जिला ईस्ट चम्पारन
  17. चम्पारन शुगर कं0 लिमिटेड, बाड़ाचकिया, जिला ईस्ट चम्पारन
  18. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 न्यू सिवान, जिला सिवान
  19. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 सिवान, जिला सिवान
  20. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 मीरगंज, जिला गोपालगंज
  21. भारत शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 सिधवलिया, जिला गोपालगंज
  22. सासा-मुसा शुगर वर्क्स(प्रा0) लिमिटेड, सासामुसा, जिला गोपालगंज
  23. द विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 विष्णु शुगर मिल्स, गोपालगंज, जिला गोपालगंज
  24. कावनपौर शुगर वर्क्स लिमिटेड, मढ़ौवरन, जिला सारण
  25. बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट गरारू, जिला गया
  26. दि बिहार स्टेट शुगर कार्पो. लि0, यूनिट वरीसालीगंज, जिला नवादा
  27. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, बनमंखी, जिला पूर्णिया
  28. दि बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट बीहटा, जिला पटना
- गुजरात (दक्षिणी)

1. श्री खेडूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, सरदार बाग, बारदोली, जिला सूरत
2. श्री माधी विभाग एस खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, पो0आ0 माधी, जिला सूरत



3. श्री चलथान विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, पो चलथान, जिला सूरत
4. श्री सयान विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, सयान, जिला सूरत
5. श्री महुआ प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, जेरवावरा, जिला सूरत
6. श्री उकाई प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, पो0आ0 पनियारी, जिला सूरत
7. श्री खेडूत सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, कोसाम्बा, तहसील मंगरूल, जिला सूरत
8. श्री कामरेज विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, कामरेज, जिला सूरत
9. श्री वलोड प्रदेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, वीरपुर तालुका वलोड, जिला सूरत
10. दि सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, गणदेवी, वाया बिल्लीमोरा, जिला बलसाड
11. श्री मरोली विभाग खांड सहकारी उद्योग मंडली लिमिटेड, कल्याणनगर, पो0आ0 मरोली, जिला बलसाड
12. श्री बलसाड सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, परनेरा पारदी, जिला बलसाड
13. श्री गणेश खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, देसाद वतारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच (वतेरिया)
14. श्री रीवा खांड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, पो0 व तालुका अमोड, जिला भरूच
15. श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली, धारीखेड़ा तालुका, नांदेड, जिला भरूच
16. बडोदरा जिला को0आप0गन्ना ग्रेवर यूनियन लिमिटेड, गंधारा, जिला बडोदरा
17. सरदार को0आप0शुगर इंडस्ट्रीज लि, लाधोद, तहसील सानखेड, जिला बडोदरा
18. श्री गोवर्धन शुगर इंडस्ट्रीज, कुकरमुंडा, तालुका निजार, जिला सूरत
19. मै0 दादर नगर हवेली सहकारी खांड उद्योग मंडली, सुरांगी, दापाडा पटेलाड, दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

### गुजरात (सौराष्ट्र)

1. चारोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, पलाज, ता0पेटलाड, जिला कैरा
2. श्री विलेश्वर खांड उद्योग खेडूत सहकारी मंडली लिमिटेड, कोडी, जिला अमरेली
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल खांड उद्योग कोआपरेटिव सोसायटीज लिमिटेड, पो0 आ0 धोराजी, जिला राजकोट

4. श्री ऊना तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, ऊना,(सोराथ) जिला जूनागढ़
5. श्रीतलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, पो0आ0 तलाला, जिला जूनागढ़ (गिर)

### हरियाणा

1. दि सरस्वती शुगर मिल्स, पो0आ0 यमुनानगर, जिला अम्बाला
2. दि हरियाणा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, पो0आ0 रोहतक, जिला रोहतक
3. दि महम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, महम, जिला रोहतक
4. दि पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पानीपत, जिला पानीपत
5. दि करनाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, करनाल, जिला करनाल
6. सोनीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, सोनीपत, जिला सोनीपत
7. शाहबाद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, थानेश्वर, जिला कुरुक्षेत्र
8. दि जींद कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, तहसील व जिला जींद
9. पलवल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पलवल, जिला फरीदाबाद
10. दि कैथल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कैथल, जिला कैथल
11. दि भूना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भूना, तहसील फतेहाबाद, जिला हिसार
12. मै0 पिकाडिल्ली एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेक्टर 17-ए, एस0सी0ओ0 40-41, चंडीगढ़, इन्द्री जिला करनाल में स्थित
13. चौधरी देवीलाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, गांव पानीवाला मोटा, जिला सिरसा
14. दि हरियाणा स्टेट फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, गोहाना, जिला सोनीपत
15. नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड, नारायणगढ़, जिला अम्बाला
16. मैसर्स हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड, असांध, तहसील असांध, जिला. करनाल, हरियाणा

### उत्तर पश्चिम कर्नाटक

1. दि गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड, समीरवाडी, मुधोल, जिला बीजापुर
2. दि उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड, उगर खुर्द, जिला बेलगांव

3. श्री मालाप्रभा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, मुगुथन हुबली, जिला बेलगांव
4. श्री दूधगंगा कृष्ण सहकारी साखर कारखाना नियमित, चिकोडी, जिला बेलगांव
5. रायबाग सहकारी साखर कारखाना नियमित, तालुका रायबाग, जिला बेलगांव
6. दि घटप्रभा सहकारी साखर कारखाना नियमित, गोकाक, जिला बेलगांव
7. श्री हालासिद्धनाथ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, निपानी, तहसील चिकोडी, जिला बेलगांव
8. मै० हिरयाकेशी सहकारी साखर कारखाना नियमित, संकेश्वर, जिला बेलगांव
9. श्री भाग्यलक्ष्मी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मंसापुर, तालुका खानपुर, जिला बेलगांव
10. नंदी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, चिक्का गालागली के पास, जिला बीजापुर
11. रायतारा सहकारी साखर कारखाना नियमित, रान्नानगर, तालुका मुधोल, जिला बीजापुर
12. मै० कर्नाटक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, हवेरी, जिला धारवाड़
13. रेणुका शुगर्स लिमिटेड, मनोली, तालुका सवादत्ती, जिला बेलगांव
14. प्रभुलिंगेश्वर शुगर वर्क्स लिमिटेड, सिद्धापुर, जिला बगलकोट
15. जाम खंडी शुगर्स लिमिटेड, हिरेपादासालागी, तहसील जामखंडी, जिला बीजापुर
16. वेंकटेश्वर पावर प्रोजेक्ट लि०, बेडाकीहल, तालुका चिकोडी, जिला बेलगांव
17. निरानी शुगर्स लि०, मुधोल-507313, जिला बागलकोट
18. अथानी फार्मर्स शुगर्स फैक्ट्री लि०, मादाभावी गांव, तालुका अठानी, जिला बेलगांव
19. कृष्ण एस०एस०के० लि०, कोकाटनूर, अठानी, जिला बेलगांव
20. जेम शुगर्स लि०, कुन्दर्गी-गांव, बिलिगी तालुका, जिला बागलकोट
21. दायामयोगी श्री शिवकुमार स्वामीजी शुगर्स लि०, हिरेबेरूर, तालुका इंडि, जिला बीजापुर
22. गोकाक पावर एंड डिस्टिलरीज लि०, हानशयाल पी०जी०, तालुका गोकाक, जिला बेलगांव
23. बीलागी शुगर मिल्स लि०, बाडागांडी, तालुका बीलागी, जिला बागलकोट
24. सोमेश्वर एस०एस०के० नियमित, बैहोंगल, जिला बेलगांव
25. मै० बादामी शुगर्स लि०, बादामी, जिला बगलकोट
26. श्री रेनुका शुगर्स लि०, बुरालतली, तालुका अथानी, जिला बेलगांव
27. मै० जीएमआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हुलाती, पोस्ट हलियाल, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक

28. मै0 इंडियन केन पावर लिमिटेड, उटुर, तालुका मुधोल, जिला बगलकोट, कर्नाटक
29. मै0 विश्वांध शुगर लिमिटेड, बेल्लड- बगवारी, ता0 हुकेरी, जिला- बेलगाम, कर्नाटक
30. श्री धनलक्ष्मी एसएसके नियमित (पट्टेदार मैसर्स जीएमआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड) खानपेट, ता0 रामलुंग, जिला: बेलगाम
31. श्री केदारनाथ शुगर एंड एगो (प्रा0) लिमिटेड, जलगेरी गगनबुधेहल, पोस्ट केरकामती, ता0 बादामी, जिला बागलकोट, कर्नाटक
32. मैसर्स इंडियन शुगर मैन्यू0 कं लिमिटेड, हवीनल, ता0 इंडी, जिला बीजापुर, कर्नाटक
33. मै0 सदाशिव शुगर्स लि0 नगराल नैनेगली, तहसील व जिला बागलकोट, कर्नाटक
34. मै0 मरूदगिरी एसएसके लि0, गंगापुर, जिला गडग

### शेष कर्नाटक

1. सुन्दरी शुगर्स लिमिटेड, पो0आ0 काम्पली शुगर फैक्ट्री, जिला बेल्लारी
2. शिरूगुप्पा शुगर्स एंड केमिकल्स प्रा0 लिमिटेड, शिरूगुप्पा तालुका , जिला बेल्लारी
3. सतारजंग शुगर मिल्स लिमिटेड, मुनीराबाद, जिला रायचूर
4. गंगावती शुगर्स लिमिटेड, प्रगतिनगर, तालुका गंगावती, जिला रायचूर
5. तुंगभद्रा शुगर वर्क्स प्रा0 लिमिटेड, शिमोगा, जिला शिमोगा
6. मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, भद्रावती, जिला शिमोगा
7. गोरीबिदानौर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गोरीबिदानौर, जिला कोलार
8. बिदर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, हलीखेड, जिला बिदर
9. वाणीबिलास कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, हिरियूर, जिला चित्रदुर्ग
10. भद्रा सहकारी साखर कारखाना लि0, दोदाबाठी, तालुका दवनगिर, जिला चित्रदुर्ग
11. दवनगिर शुगर कं0 लिमिटेड, कुक्कावाड़ा, देवनगिर, जिला चित्रदुर्ग
12. महेशवाड़ा शुगर लिमिटेड, कोल्लिगल, जिला मैसूर
13. बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड, अलगांची गांव, तालुका नंजगुडा जिला मैसूर
14. श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, चुनचनाकट्टे, कृष्णराज नगर, जिला मैसूर
15. दि हेमवती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, हसन, जिला हसन
16. सहकारी साखर कारखाना लि0, अलांड, जिला गुलबर्गा
17. पांडवपुरा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पांडवपुरा, जिला मांडया
18. मैसूर शुगर कं0 लिमिटेड, मांडया, जिला मांडया
19. चामुंडेश्वरी शुगर्स लिमिटेड, कालामुण्डाना, डोडी, तालुका म्दूर, जिला मांडया

20. द इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लिमिटेड, पो0 चितवादगी होस्पेड, जिला बिल्लारी
21. कोरामंडेल शुगर्स लिमिटेड, मक्कावल्ली, तह0के0आर0पेट, जिला मांडया
22. शामनूर शुगर्स लिमिटेड, दुग्गावथी, तहसील हरपनहल्ली, जिला बेल्लारी
23. नरंजा एसएसके लि0, गांव चिल्लेरगी, जिला बिदर
24. महात्मा गांधी सहकारी साखर कारखाना लि0, बलहालकी, जिला बिदर
25. एससीएम शुगर्स लि0, कोप्पा, मदलूर तालुका, जिला मांडया
26. भवानी खांडसारी शुगर्स लि0, गांव बारूर, तह0 व जिला बिदर
27. श्री रेनुका शुगर्स लि0, हवाल्गा, तालुक अफज़लपु, जिला गुलबर्ग
28. उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पोस्ट यादरामी, ता0 जेवारगी, जिला गुलबर्ग
29. मै0 एसपीआर शुगर्स प्रा0 लि0, कंचुगराहल्ली, बिडाडी होबली, ता0 रामनगरम, जिला बंगलौर

### केरल

1. दि कोआपरेटिव शुगर्स लिमिटेड, चित्तूर, पो0आ0 मेननपाड़ा, जिला पालघाट
2. दि ट्रावनकोर शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, वालाजावत्तम, तिरुवल्ला, जिला कोल्लाम

### गोवा

1. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, दयानन्दनगर, पो0आ0 तिस्का, जिला गोवा

### तटीय कर्नाटक

1. दक्षिण कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मंगलौर, तालुका व जिला साउथ कनारा

### मध्य प्रदेश

1. दि ग्वालियर शुगर क0लिमिटेड, डाबरा, जिला ग्वालियर
2. जावरा शुगर मिल्स, जावरा, जिला रतलाम
3. दि भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पो0आ0 एव जिला सिहोर

4. दि जीवाजी राव शुगर कम्पनी लिमिटेड, दलौदा, जिला मंदसौर
5. एम0पी0 स्टेट शुगर इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 महीदपुर रोड, जिला उज्जैन
6. मुरैना मंडल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कैलारस, जिला मुरैना
7. मालवा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, बरलाई (काशीपाड़ा) जिला इंदौर
8. नवल सिंह सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, नागलानगर, दुरहानपुर, जिला खंडवा
9. गिरधारी लाल शुगर एंड एलाइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नर्मदा नगर, घाटवा, तह0 थीकरी, जिला खरगौन
10. कृषक एस0एस0के0 मर्यादित, नरयानपुरा, तहसील राघोगढ़, जिला गुना
11. जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल लिमिटेड, सरवनदेवता, जिला खरगौन
12. भोरमदेव सहकारी साखर उत्पातक कारखाना मर्यादित, तहसील व जिला कावरधा, छत्तीसगढ़
13. करोली शुगर मिल्स प्रा. लि., गदस्वरा रोड, करोली, जिला नरसिंहपुर, म0प्र0
14. मैसर्स शक्ति शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोडिया, तहसील गदरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश
15. मैसर्स माँ भगवती शुगर्स मिल्स लिमिटेड, बक्तारा, जिला, सीहोर, मध्य प्रदेश
16. मैसर्स नर्मदा शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, पोंडर, जिला. नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश
17. मैसर्स महाकौशल चीनी एंड पावर लिमिटेड, बचई, ता0एवं जिला:-नरसिंहपुर मध्य प्रदेश
18. मैसर्स रामदेव शुगर (प्रा) लिमिटेड, थैनी, तहसील बनखेड़ी, जिला: होशंगाबाद मध्य प्रदेश
19. मैसर्स दुर्गा खंडसारी (शुगर) मिल्स, मेंडराना, जिला-बरबाना, मध्य प्रदेश
20. मै0 मा महामाया सहकारी साखर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर, जिला सूर्यगुजा, झत्तीसगढ़

#### महाराष्ट्र (मध्य)

1. श्री पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 श्रीपुर, जिला शोलापुर
2. दि सासवाडमाली शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, पो0आ0 मालीनगर, जिला शोलापुर
3. सहाकार महर्षि शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, अकलुज, जिला शोलापुर
4. श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सदाशिवनगर, जिला शोलापुर

5. श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कुमाथे, पो0आ0 टिकेकारवाडी, जिला शोलापुर
6. विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गुरुशाला, तालुका पंढरपुर, जिला शोलापुर
7. भीमा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सिकन्दर तकली, तहसील महोल, जिला शोलापुर
8. भोगवती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, इरले बैराग, तालुका बरसी, जिला शोलापुर
9. श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शीरानादागी, तहसील करमाला, जिला शोलापुर
10. इन्द्रा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मिराजगिम, तहसील अकालकोट, जिला शोलापुर
11. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तहसील भलवानी तहसील करमाला जिला शोलापुर
12. चन्द्रभागा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, भलवानी, तहसील पंढरपुर, जिला शोलापुर
13. दि रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड, रावलगांव, जिला नासिक
14. गिरना सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 भाऊसाहेबनगर, जिला नासिक
15. कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, रनवाड़, तालुका निफाड़, जिला नासिक
16. कडवा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मतेरवाडी, तालुका दिनदोरी, जिला नासिक
17. निफाड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 भाऊसाहेबनगर, जिला नासिक
18. नासिक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पालसे, जिला नासिक
19. बसन्तराव दादा पाटिल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, विथेवाडी, (लोहानेर), जिला नासिक
20. दि कोपरगांव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0 कोलपेवाडी, जिला अहमदनगर
21. पदमश्री डा0 विठ्ठल राव विखे पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि0, प्रवरनगर, जिला अहमदनगर-413706
22. अशोक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, अशोकनगर, पो0आ0 श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर

23. श्री गणेश सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गणेशनगर पो0आ0 रंजनगांव खुर्द, जिला अहमदनगर
24. संजीवनी (तकली)सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तालुका कोपरगांव, जिला अहमदनगर
25. राहुरी सहकारी साखर कारखाना पो0आ0 राहुरी फैक्ट्री, जिला अहमदनगर
26. श्री गोंडा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर
27. संगमनेर भाग सहकारी साखर कारखाना लि, अमृतनगर, तालुका संगमनेर, जिला अहमदनगर
28. श्री दयानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि, भेनदे तालुका निवाशा, जिला अहमदनगर
29. श्री जगदम्बा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, राशिन, तहसील करजत, जिला अहमदनगर
30. श्री बृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0 आ0 बृद्धेश्वर साखर कारखाना, तालुका पथारडी, जिला अहमदनगर (पिम्पलगांव)
31. मुला सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सोनाई, तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर
32. परनेर तालुका सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, परनेर, जिला अहमदनगर
33. अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, जामगांव, तहसील अकोला, जिला अहमदनगर
34. केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, बोधेगांव, तहसील शेगांव, जिला अहमदनगर
35. इदापुर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, बीजावाडी तालुका इदापुर, जिला पुणे
36. श्री छत्रपति सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, भवानीनगर, तालुका इन्दापुर, जिला पुणे
37. दि मालेगांव सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, मालेगांव बी0के0, जिला पुणे
38. श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 सोमेश्वरनगर, जिला पुणे
39. यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, चिन्तामणिनगर, पो0आ0 थियूर, जिला पुणे
40. भीमा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पटास, तालुका डोंड, जिला पूणे
41. विघ्नाहर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, जुन्नार, जिला पुणे
42. राजगढ़ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड,, निगाडे, तालुका भोर, जिला पुणे
43. गोदगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, हावरे तहसील सिरूर, जिला पुणे



44. श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कसरसाई, तालुका मुलसी, जिला पुणे
45. भीमाशंकर एस0एस0के0लिमिटेड, परगांव वाया अवासारी तहसील अम्बेगांव, जिला पुणे
46. लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गांव बीबी दरफल, ता0 नॉर्थ सोआपुर, जिला शोलापुर
47. साईकृपा साखर कारखाना लिमिटेड, देवदैथान, टी0के0 श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर
48. लोकनेता बाबूराव पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि0, लक्ष्मीनगर अंगर, तालुका मोहोल, जिला शोलापुर
49. नगर तालुका सहकारी साखर कारखाना लि0, वलकी, तालुका नगर, जिला अहमदनगर
50. नीरा भीमा सहकारी साखर कारखाना लि0, शाहजी नगर, तालुका इंदोपुर, जिला पुणे
51. संगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना लि0, वाकी (शिवाने), तालुका संगोला, जिला शोलापुर
52. विठ्ठल राव शिन्दे सहकारी साखर कारखाना लि0, गंगामाये नगर, तालुका मधा, जिला शोलापुर
53. श्री मकाई एसएसके लि0, भीलारवाडी, ता0 कर्मला, जिला शोलापुर
54. कुकाडी एसएसके लि0, पिम्पलगांव, ता0 श्रीगोंडा, जिला अहमदनगर
55. श्री चांगदेव शुगर मिल्स लि0, चांगदोनगर, जिला अहमदनगर
56. राजाराम बापू एसएसके लि0, वाटेगांव - सुरूई, यूनिट नं0 2, पो0 वाटेगांव, तालुका वाल्वा, जिला सांगली
57. श्रीनाथ महासलोबा सहकारी साखर कारखाना लि0, पतेथान, तालुका दोन्ड, जिला पुणे
58. अनुराग शुगर मिल्स लि0, मेवात, तालुक दौंड, जिला पुणे
59. बागेमती एग्रो लि0, शेलफालगाडे, तालुक इंदुपुर, जिला पुणे
60. मै0 विठ्ठल शुगर मिल्स लिमिटेड, महैशगांव, ता0-मध, जिला: सोलापुर, महाराष्ट्र
61. मै0 भैरवनाथ शुगर वर्क्स लिमिटेड, सोनारी, ता0- परांडा, जिला पुणे, महाराष्ट्र
62. मैसर्स लोकमंगल शुगर एथनाल एंड कोजेनरेशन लिमिटेड, भंडार कवाथे, ता0 - दक्षिण सोलापुर, जिला: सोलापुर, महाराष्ट्र
63. मैसर्स दौंड शुगर मिल्स लिमिटेड, अलेगांव, ता0 दौंड, जिला: पुणे, महाराष्ट्र
64. मै0 सिद्धनाथ शुगर मिल्स लि0, तिरहे, ता0 दक्षिण सोलापुर, जिला सोलापुर

65. गंगामाई शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाजिक बाबेलगांव, पो0 राक्षी, तालुका शिवगांव, जिला अहमदनगर

**महाराष्ट्र (दक्षिणी)**

1. श्री भोगवती सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शाहूनगर, पोस्ट परिते, जिला कोल्हापुर
2. श्री छत्रपति एस0एस0के0 लिमिटेड, कसाबा भावडा, जिला कोल्हापुर
3. देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गंगानगर, इंचालकरंजी, जिला कोल्हापुर
4. श्री तात्यासाहेब कोरे वरारा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 वर्णानगर, ता0 पनहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र
5. कुम्भी केशरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कुदित्रे, तालुका करवीर, जिला कोल्हापुर
6. श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, बिदरी पो0आ0 मौनीनगर, तालुका कागल, जिला कोल्हापुर
7. श्री दत्ता सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, असरुले, तालुका पनहाला, जिला कोल्हापुर
8. श्री दत्ता सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सिरोल, जिला कोल्हापुर
9. दौलत शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 हलकरणी, ता0 चन्दगाड जिला कोल्हापुर
10. गांधीगलाज तालुका सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गांधीगलाज, जिला कोल्हापुर
11. छत्रपति साहू सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कागल, जिला कोल्हापुर
12. जवाहर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, हुपारी, ता0 हतकांगले जिला कोल्हापुर
13. अजरा शेतकारी एस0एस0के0 लिमिटेड, गावसे, तहसील अजरा, जिला कोल्हापुर
14. कृष्णा एस0एस0के0 लिमिटेड, रीठारे बुदरूक, पो0आ0 शिवनगर, जिला सतारा
15. श्रीराम जवाहर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, फाल्टन, जिला सतारा
16. न्यू फाल्टन शुगर वर्क्स लिमिटेड, तालुका फाल्टन, पो0आ0 शाखरवाडी, जिला सतारा
17. किसानवीर सतारा एस0एस0के0 लिमिटेड, भुंज, तालुका वाई, जिला सतारा

18. बालासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, दौलतनगर (मराठी) तालुका पाटन, जिला सतारा
19. सहयाद्री सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, यशवंतनगर, तालुका कराड, जिला सतारा
20. अंजनकयात्रे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शैन्द्रे, जिला सतारा
21. झारण्डेश्वर एस0एस0के0 लिमिटेड, चिमानगांव, तहसील कोरेगांव, जिला सतारा
22. राजाराम बापू पाटिल सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, राजारामनगर, पो0आ0 सखराले, तालुका वाल्वा, जिला सांगली
23. वसंतदादा शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 सांगली, जिला सांगली
24. जठ तालुका शेतकारी एस0एस0के0 लिमिटेड, एट तिपेहाल्लीजठ, तालुका जठ, जिला सांगली
25. विश्वास सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, यशवंतनगर, पो. चिखाली तालुका शिराला, जिला सांगली
26. हुतात्मा किसान अहीर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, वाल्वा, जिला सांगली
27. यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, नागेवाडी, तालुका खानपुर, जिला सांगली
28. महाकाली एस0एस0के0 लिमिटेड, कवाठे महाकाली, जिला सांगली
29. तासगांव तालुका सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तासगांव, (तुरची फटा) पो0 तुरची, तालुका तासगांव, जिला सांगली
30. मानगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सोनारसिद्धनगर, जिला सांगली
31. सोनहीरा एस0 एस0के0 लिमिटेड, वांगी, तालुका खानपुर, जिला सांगली
32. कगल टी0के0एस0एस0के0 लिमिटेड, हिमदवाडे कोलेग, ता0 कगल, जिला कोल्हापुर
33. निनाइ देवी एस0एस0के0 लिमिटेड, कुकासूद, तालुका शिराला, जिला सांगली
34. मै0 केन एग्रो एनर्जी इंडिया लि0 लिमिटेड, रायगांव, तालुका खानपुर, जिला सांगली
35. रायत सहकारी साखर कारखाना लि0, शेवालवाडी, तालुका कराड, जिला सांगली
36. शरदशंकर सहकारी साखर कारखाना लि0, नारनंदे, तालुका हतकंगाले, जिला कोल्हापुर
37. उदयसिंहराव गायकवाड़ एसएसके लि0, सोनावाडे, जिला कोल्हापुर
38. क्रांति एसएसके लि0, कुडल, तालुका पलास, जिला सांगली
39. प्रतापगढ़ एसएसके लि0, कालगढ़, ता0 जवाली, जिला सतारा

40. सर्वोदय एसएसके लि०, क्रांदवाडी, ता० वाल्वा, जिला सांगली
41. मोहनराव शिन्दे एसएसके लि०, मोहननगर, ता० मिरज, जिला सांगली
42. इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास एसएसके लि०, तम्बाले, ता० भुदारगढ़, जिला कोल्हापुर
43. पदमश्री डा० डी.वाई पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि०, दनयाशांतिनगर, तालुका गंगा भवाडा, जिला कोल्हापुर
44. श्री गुरुदत्त शुगर्स लि०, तकालीवाडी, ता० शिरोल, जिला कोल्हापुर
45. नलवाडे शुगर मिल्स लि०, महालुंगे, तहसील चंदगाड, जिला काल्हापुर
46. मै० जयवंत शुगर्स लि०, धावरवाडी, ता० कराड, जिला सतारा

#### महाराष्ट्र (उत्तरी),

1. श्री पंजारकां एस०एस०के० लिमिटेड, भादने, तालुका शाकरी, जिला धुलिया
2. सिंधखेड़ा एस०एस०के० लिमिटेड, दीगांव-तहसील- सिंधखेड़ा, जिला धुलिया
3. पुष्पदंतेश्वर एस०एस०के० लिमिटेड, समशेरपुर, तालुका नादरबार, जिला धुलिया
4. संजय सहकारी साखर कारखाना धुले सिंधखेड़े अमलनेर लिमिटेड, विजयनगर, तालुका एवं जिला धुलिया
5. शिरपुर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, दहीवाड़, तालुका शिरपुर, जिला धुलिया
6. श्री सतपुड़े तापी परिसर एस०एस०के० लिमिटेड, शाहादा, पो०आ० पुरुषोत्तमनगर, जिला धुले
7. जीजामाता सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, दुसारवीड, तालुका मेहकर, जिला बुलधाना
8. तेरना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तेरनानगर, तालुका धोकी, जिला ओस्मानाबाद
9. तुलजा भवानी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, नालदुर्ग, तालुका तुलजापुर, जिला ओस्मानाबाद
10. गंगापुर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो०आ० रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद
11. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सिल्लौड, जिला औरंगाबाद
12. दि कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कन्नड, जिला औरंगाबाद
13. विनायक सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, परसोडा, तालुका बैजापुर, जिला औरंगाबाद

14. श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पैथन, जिला औरंगाबाद
15. श्री नामदेवराव बी0गाकेकर देवगिरी एस0एस0के0लिमिटेड, फुलम्बरी, तालुका एवं जिला औरंगाबाद
16. कालम्बर विभाग सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कालम्बर, पो0 गांधीनगर, जिला नानदेड
17. शंकर एस0 एस0के0 लिमिटेड, फूलेनगर, तहसील भोकर, जिला नांदेड
18. श्री भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, देगांव, तहसील एवं जिला नांदेड
19. गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, शंकरनगर, पो0आ0 रामतीर्थ, तालुका बिनौली, जिला नांदेड
20. जयवंत पाटिल एस0एस0के0 लिमिटेड, हडसानी, तह0 हडगांव, जिला नांदेड
21. जय अंबिका एस0एस0के0लिमिटेड, मोहन नगर, कुंतूर, तहसील बिनौली, जिला नांदेड
22. श्री शंकर शेतकारी एस0एस0के0लिमिटेड, गांभ मंगरूल, जिला यवतमाल
23. वसंत सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पुसाड, जिला यवतमाल
24. जय किसान एस0एस0के0 लिमिटेड, बोडेगांव, तहसील दारवा, जिला यवतमाल
25. सुधाकरराव नाईक एस0एस0के0लिमिटेड, चिखाली, तालुका पुसाड, जिला यवतमाल
26. अम्बाजोगई सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 अम्बा शाखर, तालुका अम्बाजोगई, जिला बीड
27. जय भवानी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 ग्याराई, जिला बीड
28. काड़ा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तहसील अस्थी, जिला बीड
29. गजानन सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तालुका एवं जिला बीड
30. माजलगांव एस0एस0के0 लिमिटेड, निठरूड तहसील महालगांव, जिला बीड
31. वैद्यनाथ एस0एस0के0लिमिटेड, पन्गारी, तहसील अम्बाजोगई, जिला बीड
32. मधुकर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 फेजपुर, जिला जलगांव
33. वसंत एस0एस0के0लिमिटेड, कसौडा, जिला जलगांव
34. बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तालुका चालीसगांव जिला जलगांव(भोरस)
35. श्री चोपड़ा एस0एस0के0 लिमिटेड, माचाले, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव
36. श्री संत मुक्ताबाई एस0एस0के0लिमिटेड, गोडासगांव, तहसील एदलाबाद, जिला जलगांव
37. मराठवाड़ा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 डोंगरखेडा, तालुका-पठारी, जिला परभनी

38. गोदावरी दुधान सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, देवनांद्रा, तालुका पढारी, जिला परभनी
39. नरसिंहा एस0एस0के0लिमिटेड, लोहगांव, जिला परभनी
40. बड़ाशिव हनुमान एस0एस0के0लिमिटेड, जवाला बाजार, तहसील बसमथनगर, जिला परभनी
41. पूर्णा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 बसमतनगर, जिला परभनी
42. समर्थ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, महालाला, तालुका अम्बबाड, जिला जालना
43. जालना शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, ग्राम रामनगर तहसील व जिला जालना
44. श्री बागेश्वरी एस0एस0के0 लिमिटेड, वारफल ता0 पारतुर, जिला जालना
45. जय जवान जय किसान एस0एस0के0 लिमिटेड, नालेगांव, ता0 अहमदपुर जिला लातूर
46. शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, पो0आ0 किल्लारी, जिला लातूर
47. मंजारा शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, तालुका चिंचौलीराव, जिला लातूर
48. शिवाजीराव पाटिल नीलांगाकर एस0एस0के0 लिमिटेड, अम्बुलगा (बी0के0), तालुका नीलांगा, जिला लातूर
49. शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, धमनगांव, तालुका चंदूर रेलवे स्टेशन, जिला अमरावती
50. श्री कोंडेश्वर एस0एस0के0 लिमिटेड, रामनगर, तहसील फुबगांव, जिला अमरावती
51. महात्मा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गांव जामनी, तालुका सलौर, जिला वर्धा
52. सहकार महर्षि स्व0 श्री बापूरावजी देशमुख एस0एस0के0 लिमिटेड, वेला, तहसील हिंगनघाट, जिला वर्धा
53. दि वेनगंगा एस0एस0के0 लिमिटेड, तहसील महोली रोड, जिला भंडारा
54. बालाजी एस0एस0के0 लिमिटेड, मसालापैन, तालुका रिसोड, जिला अकोला
55. अकोला जिला एस0एस0के0 लिमिटेड, विजोर, जिला अकोला
56. श्रीराम एस0एस0के0 लिमिटेड, बाबदेव, तहसील मौंदा, जिला नागपुर
57. रामगणेश गदकरी एस0एस0के0 लिमिटेड, साओनेर, जिला नागपुर
58. नेचुरल शुगर एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रंजानी, तालुका कल्लाम, जिला ओसमानाबाद

59. बालाघाट शेतकारी एस0एस0के0 लिमिटेड, उजाना, तहसील अहमदपुर, जिला लातूर
60. द्वारकाधीश साखर कारखाना लिमिटेड, संवरे, टी के बागालन, जिला नासिक
61. शारंगधर शुगर मिल्स लि0, उकाली, तालुका मेहकर, जिला बुलधाना
62. अनुराधा शुगर मिल्स लि0, श्रीमुंसाजी, महाराजनगर, तालुका वारु(धाड), जिला बुलधाना
63. छत्रपति सम्भाजी राव सहकारी उद्योग लि0, दीनदयालनगर, चित्तेपिम्पलगांव, तालुका व जिला औरंगाबाद
64. जय महेश शुगर इंडस्ट्रीज लि0, पावरवाडी, तालुका माजलगांव, जिला बीड
65. पदमश्री डा0 विठ्ठलराव विखे पाटिल एसएसके लि0, कोठी पर, तालुका कैज, जिला बीड
66. पन्नागेश्वर शुगर मिल्स लि0, पंगांव, तालुका रेनापुर, जिला लातूर
67. श्री रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि0, रावसाहेबनगर, पो0 सिपोरा बाजार, तालुका भोकरदान, जिला जालना
68. डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर सहकारी साखर कारखाना लि0, केशेगांव, जिला ओसमानाबाद
69. श्री विठ्ठल एसएसके लि0, मुरुम तालुका ओमेरगा, जिला ओसमानाबाद
70. विकास एसएसके लि0, वैशालीनगर, निवली तालुका व जिला लातूर
71. योगश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि0, लक्ष्मीनगर, लिम्बा पर, तालुका पथारी, जिला पारभणी
72. शिवशक्ति शेतकारी एसएसके लि0, वाशी(थंडूलवाडी), ता0 वाशी, जिला ओसमानाबाद
73. शम्भु महादेव शुगर एंड एलायड इंडस्ट्रीज लि0, हवारगांव, ता0 कल्लाम, जिला ओसमानाबाद
74. श्री संत शिरोमणी मारूती महाराज एसएसके लि0, मौलीनगर, बेलकुड, ता0औसा, जिला लातूर
75. शिवशक्ति आदिवासी एंड मेगास्वर्गीय एसएसके लि0, सुजानपुर, तहसील खामगांव, जिला बुलदाना
76. प्रिदर्शनी शेतकारी एसएसके लि0, टोंडा, ता0 उदगीर, जिला लातूर
77. जय शिवशंकर एसएसके लि0, शेषनगर, मंजारी, ता0 मुखेड, जिला नान्देड
78. रावेर तालुका एसएसके लि0, ओमकारेश्वर, करजोड, ता0 रावेर, जिला जलगांव
79. हीवारामाई शुगर इंडस्ट्रीज लि0, मोनधाले, ता0 पचोरा, जिला जलगांव
80. नरसिंहा एसएसके लि0, इंदापुर, ता0 वाशी, जिला ओसमानाबाद

81. राणा एसएसके लि०, नीवाडा, ता० रेनापुर, जिला लातूर
82. भीमाशंकर शुगर मिल्स लि०, पारगांव, ता० वाशी, जिला ओसमानाबाद
83. वैष्णवी शुगर (इंडिया) लि०, शिव भास्कर नगर, पो० शेनदुर्जन, ता० सिंधखील राजा, जिला बुलधाना
84. आदिवासी एसएसके नवापूरा, नन्दूरबार विभाग लि०, डोकाने, ता० नवापूरा, जिला नन्दूरबार
85. पूर्ति सहकारी कारखाना लि०, गांव खूरसेपुर बाली, ता० उमरेद, जिला नागपुर
86. विदर्भ शुगर मिल्स प्रा० लि०, कुरहा, तालुका तिवासा, जिला अमरावती
87. श्री साईबाबा शुगर्स लि०, शिवानी(बीके), तालुक औसा, जिला लातूर
88. धाराशिव साखर कारखाना लि०, चोराखली, तालुक कल्लाम्ब, जिला उस्मानाबाद
89. मैसर्स सागर एसएसके लिमिटेड, तिरथपुरी, ता०-घनसवांगी, जिला: जालना महाराष्ट्र
90. मैसर्स समरूथी शुगर्स लिमिटेड, रेणुका नगर, ता०-घनसवांगी, जिला: जालना, महाराष्ट्र
91. मैसर्स मुक्तेश्वर शुगर्स मिल्स लिमिटेड, घमोरी, ता०-गंगापुर जिला: औरंगाबाद, महाराष्ट्र
92. मै० गंगाखेड शुगर एंड एनर्जी प्रा० लि०, मखानी, ता० गंगाखेड, जिला परभनी, महाराष्ट्र

### नागालैंड

1. नागालैंड शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दीमापुर, जिला कोहिमा

### पंजाब

1. दि मोरिंडा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, मोरिंडा जिला रोपड़
2. वाहिद संधार शुगर्स लिमिटेड, फगवाड़ा, जिला कपूरथला
3. भगवानपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धुरी, जिला संगरूर
4. दि भोगपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर, जिला जालंधर
5. नकोदर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, नकोदर, जिला जालंधर
6. दि दोआबा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, नवांशहर, जिला नवांशहर
7. दि बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बटाला, जिला गुरुदासपुर



8. दि गुरुदासपुर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पंजार, जिला गुरुदासपुर
9. जीरा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, जीरा, जिला फिरोजपुर
10. फाजिल्का कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, फाजिल्का, जिला फिरोजपुर
11. बुडेवाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, दोराहा, तहसील सम्मराला, जिला लुधियाना
12. दि जगरावं कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, हातुर, कमालपुर, जिला लुधियाना
13. तरनतारन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, सिरोन, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर
14. दि अजनाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भालापिंड, अजनाला, जिला अमृतसर
15. राणा शुगर लिमिटेड, बटर सवियान, तह0 बाबा बकाला, जिला अमृतसर
16. बुधलाडा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बुधलाडा, तहसील मानसा, जिला भटिंडा
17. फरीदकोट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, रोरी, चटसिंहवाला, जिला फरीदकोट
18. ओसवाल शुगर लिमिटेड, मुकेरियां, जिला होशियारपुर
19. पटियाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, गांव रखारा, जिला पटियाला
20. पिकाडिली शुगर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पतरान तहसील समाना, जिला पटियाला
21. नाहर इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइजिज लिमिटेड,(यूनिट नाहर शुगर) अमलोह, तहसील नाभा, जिला पटियाला
22. दि पंजाब स्टेट फेडरेशन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, तहसील दसुवा, जिला होशियारपुर
23. मार्कफेड शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, मालोट, जिला मुक्तसर

### राजस्थान

1. मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
2. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर, जिला गंगानगर
3. श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड,पो0आ0केशोरायपाटन,जिला बूंदी

### तमिलनाडु और पांडिचेरी

1. ई0आई0डी0 पेरी इंडिया लिमिटेड, पो0आ0पुगालुर शुगर फैक्ट्री, जिला त्रिचरापल्ली

2. ई0आई0डी0 पाटी (इंडिया) लि0, पट्टाडवेसलाई, जिला त्रिचरापल्ली
3. कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, कदूर, तालुका तालगुडी, जिला त्रिचरापल्ली
4. पेराम्बलूर शुगर मिल्स लिमिटेड, एराईयूर, तालुका पेराम्बलूर, जिला त्रिचरापल्ली
5. ई0आई0डी0फैरो(इंडिया)लिमिटेड, पो0आ0नेल्लिकम्पम, जिला साउथ अरकाट
6. मै0 राजश्री शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड, मुडियामाक्कम, जिला साउथ अरकाट
7. श्री अम्बिका शुगर्स लिमिटेड, पेनादम, जिला दक्षिण अरकाट
8. कलाकुरीची कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 मंगील्थुरईपट्टू, जिला साउथ अरकाट
9. दि कलाकुरीची-II कोआपरेटिव शुगर मिल्स, काचिरायापालयाम, तालुका कालाकुरीची, जिला विल्लूपुरम, रामास्वामी पडयाचियार
10. चंगलरायन कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पेरियासेवलाई, उलन्दरपेट तालुका, जिला साउथ अरकाट
11. एम0आर0कृष्णामूर्ति कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, सेथियाथोपे, तहसील चिदम्बरम जिला साउथ अरकाट
12. तमिलनाडु शुगर कोआपरेटशन लिमिटेड, पांडियाराजापुरम, जिला मदुरै
13. नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि0, मेट्टुपट्टी, वाया अलगानालूर, जिला मदुरै
14. राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, पेरियाकुल्लम तालुका, जिला मदुरै
15. अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, कृष्णापुरम, पो0आ0 जिला कोयम्बतूर
16. दि थिरु अरूरन शुगर्स लिमिटेड, कोल्लूमनगुडी गांव पेरालम/अगराधीरूमालम, फिरका नन्नीलम तालुका, जिला नगई क्वैड-ई-मिलैथ
17. अरिगनार अन्ना शुगर्स मिल्स लिमिटेड, कुरुनगुलम, जिला थंजावूर
18. नाडिपिस्सई पुलावर के0आर0 रामास्वामी शुगर मिल्स लिमिटेड, मायलाथुरई, जिला थंजावूर
19. थिरु अरूरान शुगर्स लिमिटेड, पापानासम, जिला थंजावूर
20. श्री अम्बिका शुगर्स लिमिटेड, कोडूर, टीकेथिरुविदैयमरूथूर, जिला थंजावूर
21. दि अम्बूर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0वाडपुडपेट, अम्बूर जिला नार्थ आरकाट
22. मै0 तिरुपतूर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, केथांदपट्टी गांव, बनियामबाडी, तालुका, जिला नार्थ आरकाट
23. दि वेल्लोर कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, अम्मुंडी, पो0आ0 वेल्लोर शुगर मिल्स, जिला नार्थ आरकाट

24. तमिलनाडु कोआपरेटिव शुगर फेडरेशन लिमिटेड, चण्यार/बांडीवास, जिला नार्थ आरकाट,
25. धरानी शुगर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कराईपुंडी तालुका पाल्लूर, जिला थिरुवन्नामलाई सम्भूरायार
26. दि मदुरांतकम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पाडालम, जिला चेंगलपट्टू
27. एस0वी0 शुगर मिल्स लिमिटेड, वाजलाबाद, फिरका, जिला चेंगलपट्टू, एम0जी0आर0
28. तिरुत्तनी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, तिरुट्टानी, जिला चेंगलपट्टू
29. शक्ति शुगर मिल्स लिमिटेड, शक्तिनगर, पो0आ0 इरोडे, जिला पेरियार
30. बन्नारि अम्मान शुगर्स लिमिटेड ग्राम अलाथूकोम्बाई, सत्यामंगलम, जिला इरोड
31. दि सालेम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, मोहनूर, जिला सालेम
32. पोन्नी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, पालिपलायम, तालुका तिरुचेंगोडे, जिला सालेम
33. धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, चिम्मनहेली पालाकोडे, जिला धर्मपुरी
34. सुब्रमण्यम शिवा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, तहसील हरूर, जिला धर्मपुरी
35. धरानी शुगर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, तालुका शिवागिरी, जिला तिरुनेलवेली
36. शक्ति शुगर्स लिमिटेड, शिवगंगा तालुका, जिला पसुम्पन मथुरामालिंगम
37. ई0आई0डी0पेरी(इंडिया)लिमिटेड, अरन्तांगी, जिला पुडुकोट्टाई
38. अरुणाचलम शुगर मिल्स लि0, मलपाम्बादे गांव, तालुका व जिला थिरुवन्नामलाई
39. कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स लि0, साथमंगलम, तालुका अरैयालूर, जिला पेरम्बलूर
40. शक्ति शुगर्स लि0, पुंडरी सेरमुर, तालुका एवं जिला इरोड
41. न्यू होरीजोन शुगर मिल्स प्रा0लिमिटेड, सगरूर(अबियूर) पो0आ0 कंडामंगलम, पांडिचेरी
42. दी पांडिचेरी कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, लिंगारेड्डीपलायम, मन्नीडीपेट, केम्यूनी
43. मै0 राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, सेम्मेदू, ता0-गिंगी, जिला: विल्लुपुरम, तमिलनाडु
44. मैसर्स धरनी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कल्यानेल्लेर, शंकरपुरम ता0, जिला: विल्लुपुरम,

45. मैसर्स धनलक्ष्मी श्रीनिवासन शुगर प्रा. लिमिटेड, उडुम्बयानी, जिला: पेराम्बलूर, तमिलनाडु
46. मैसर्स बन्नारी अम्मान शुगर्स लिमिटेड, गांव कोलुंडनपट्टी, थंडरमपट्टी ता0, जिला: तिरुवन्नामलाई
47. मै0 इम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लि0, इड्डईक्कल, ता0 अम्बासमुद्रम, जिला: तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

#### उत्तर प्रदेश(मध्य)

1. दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, पो0 साथा, हरदेवगंज, जिला अलीगढ़
2. दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, बदायूं पो0आ0, जिला बदायूं
3. दी यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट बिजनौर, जिला बिजनौर
4. अपर गंगेज शुगर एण्ड इंडस्ट्रीज लि0, सिवहारा, जिला बिजनौर
5. दी धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धामपुर, जिला बिजनौर
6. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, चांदपुर, जिला बिजनौर
7. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, स्नेह रोड, नजीबाबाद, जिला बिजनौर
8. द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बुंदकी जिला बिजनौर
9. दी अजुधिया शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद
10. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट अमरोहा, जिला मुरादाबाद
11. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, गजरौला, जिला मुरादाबाद
12. वेभ इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमिटेड, धनौरा, जिला मुरादाबाद
13. वीनस शुगर लिमिटेड, माझावाली, (भरतारा) तहसील संभल, जिला मुरादाबाद
14. धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, असमोली, तहसील संभल, जिला मुरादाबाद
15. दीवान शुगर्स लिमिटेड, अगवानपुर, जिला मुरादाबाद
16. रुद्रविलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, विलासपुर, जिला रामपुर
17. दी केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बहेड़ी, जिला बरेली
18. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सेमीखेड़ा, तहसील और जिला बरेली
19. जे0के0 इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मीरगंज, जिला बरेली
20. ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड, नवाबगंज, जिला बरेली
21. रोजा शुगर वर्क्स लि0 (प्रा0 औध शुगर मिल्स लिमिटेड), रोजा, जिला शाहजहांपुर
22. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, तिलहर, जिला शाहजहांपुर

23. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 पोआयन, जिला शाहजहांपुर
24. एल0एच0 शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, पीलीभीत, जिला पीलीभीत
25. दि किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, मझौला, जिला पीलीभीत
26. विसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, विसालपुर, जिला पीलीभीत
27. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत
28. दि शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि0, न्योली शुगर फैक्ट्री, पो0आ0न्योली, जिला एटा
29. किटप्लाई इंडस्ट्री लि0, रूपापुर, जिला हरदोई
30. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद
31. छाता शुगर कं0 लि0, पो0ओ0 छाता, जिला मथुरा
32. घाटमपुर शुगर कं0 लि0, तह0 घाटमपुर, जिला कानपुर
33. दि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, यूनिट रामपुर, जिला रामपुर
34. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, बरेली, जिला बरेली
35. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, हरदोई, जिला हरदोई
36. आनंद एगोकेम इंडिया लि0, गोपी-लाधुआ, तह0 कोल, सिंकदरा राव, जिला अलीगढ़
37. डीएसएम शुगर काशीपुर, यूनिट डीएसएम एगो प्रोडैक्टस लि0, काशीपुर, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
38. दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
39. कच्छा शुगर कोआपरेटिव लि0, किच्छा, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
40. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, राजापुर, पूर्णपुर, नदेशी, पो0आ0 जसपुर, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
41. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, तह0 सितारगंज, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
42. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गदरपुर, जिला नैनीताल, उत्तरांचल
43. बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड, यूनिट बिलाई, तहसील हल्दौर, जिला बिजनौर
44. द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि0, बहादुरपुर, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर
45. बजाज हिन्दुस्तान लि0, यूनिट बारखेंडा, जिला पीलीभीत
46. दि गोविंद शुगर मिल्स लिमिटेड, पो0आ0 एईरा एस्टेट, जिला खीरी
47. दि सरजू सहकारी मिल्स लिमिटेड, बेलरायन, जिला खीरी
48. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सम्पूर्णनगर, तहसील निगाशान, जिला लखीमपुर खीरी
49. डीसीएम श्रीराम कंसोलीडेटेड लि0, अजबपुर, ब्लाक पासगांव, जिला लखीमपुर खीरी
50. बजाज हिन्दुस्तान लि0, खाम्बरखेड़ा, तहसील और जिला लखीमपुर खीरी

51. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, चंदनपुर, पो०आ० चापना, तह० हरानपुर, जिला जे०पी० नगर
52. डीएससीएल शुगर लि०, हरियावन, जिला हरदोई
53. डीएससीएल शुगर लि०, लोनी, जिला हरदोई
54. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०, रानीनांगल, तहसील ठाकुरट्वारा, जिला मुरादाबाद
55. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडिया लि०, मिलक नरानपुर, पो०आ० दडियाल, तहसील स्वार, जिला रामपुर
56. धामपुर शुगर मिल्स लि०, राजपुरा, तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं
57. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, कुम्भी, तहसील गोलागोरखनाथ, जिला लखीमपुर खीरी
58. राना शुगर्स लि०, बेलवाड़ा, तहसील और जिला मुरादाबाद
59. डालमिया चीनी मिल्स लि०, निगोही, पो०आ० अरोली, जिला शाहजहांपुर
60. द्वारकेश शुगर (आई) लि०, भगवानपुर फुलवा, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली
61. बजाज हिन्दुस्तान लि०, मक्सूदपुर, तहसील पवायां, जिला शाहजहांपुर
62. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, गुलरिया, तहसील गोलागोरखनाथ, जिला लखीमपुर खीरी
63. उत्तम शुगर मिल्स लि०, पुडरीखुर्द, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर
64. मैसर्स दि बघौली शुगर एंड डिस्टिलरी लिमिटेड, बिकापुर, बघौली पीओ, तहसील एवं जिला. हरदोई, उ०प्र०

#### उत्तर प्रदेश (पूर्वी)

1. दि अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, हरगांव, जिला सीतापुर
2. दि सेकसरिया बिस्वां शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बिस्वां, जिला सीतापुर
3. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, महमूदाबाद, जिला सीतापुर
4. डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, (यूनिट रामगढ़ चीनी मिल्स) रामगढ़ तहसील मिसरीख, जिला सीतापुर
5. कमलापुर शुगर एण्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, कमलापुर, जिला सीतापुर
6. दि यूनाइटेड प्रोविन्सीज शुगर कं० लिमिटेड, सिरोही, जिला पड़रौना
7. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट बेतालपुर, जिला देवरिया
8. कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पो०आ० गौरी बाजार, जिला देवरिया
9. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट देवरिया, जिला देवरिया

10. दि कनोरिया शुगर एंड जनरल मै0फै0 कं0 लिमिटेड, कैप्टेनगंज, जिला पडरौना
11. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 राजाबाजार, यूनिट खड्डा, जिला पडरौना
12. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लक्ष्मीगंज, जिला पडरौना
13. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामकोला, जिला पडरौना
14. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट रामकोला, जिला पडरौना
15. कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, पडरौना, जिला पडरौना
16. कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, काथकुइयांन, जिला देवरिया
17. मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रतापपुर, जिला देवरिया
18. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट भटनी, पो0आ0 भटनी, जिला देवरिया
19. सराया शुगर मिल्स प्रा0 लिमिटेड, सरदारनगर, जिला गोरखपुर
20. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पिपराइच, जिला गोरखपुर
21. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, सिसवाबाजार, जिला महाराजगंज
22. स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कं0 लिमिटेड, आनन्द नगर, जिला महाराजगंज
23. जे0एच0वी0 शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, गडौरा तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज
24. दि बस्ती शुगर मिल्स को0 लिमिटेड, पो0आ0 व जिला बस्ती
25. गोविन्दनगर शुगर लिमिटेड, पो0आ0 बाल्टरगंज, जिला बस्ती
26. खलीलाबाद शुगर मिल्स लिमिटेड, खलीलाबाद, जिला बस्ती
27. दि बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, बभनान, जिला गोंडा
28. बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, बलरामपुर, जिला गोंडा
29. तुलसीपुर शुगर कं0 लिमिटेड, (बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 की एक यूनिट) तुलसीपुर, जिला गोंडा
30. इंडो गल्फ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मीजापुर, जिला गोंडा
31. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट जरबल रोड, जिला बहराइच
32. अवस्थी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, नानपाड़ा, जिला बहराइच
33. चिलवारिया शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, चिलवारिया, जिला बहराइच
34. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट बड़हवाल, जिला बाराबंकी
35. मै0 रोजागांव मिल्स (बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की यूनिट), जिला बाराबंकी
36. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट शाहगंज, जिला जौनपुर
37. कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स प्रा0 लि0, पो0आ0 मोतीनगर, जिला फैजाबाद

38. काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, औराई, जिला वाराणसी
39. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रसरा, जिला बलिया
40. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, साधिया, जिला आजमगढ़
41. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, घोसी, जिला मऊ
42. नन्दगंज सिहोरी शुगर कं० लि०, दरयापुर, जिला राय बरेली
43. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सुलतानपुर, अवध
44. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, हैदरगढ़ जिला बाराबंकी
45. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, चित्तौनी, जिला पडरौना
46. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, धुरीपार, ब्लाक उरवा, गोलाबाजार, जिला गोरखपुर
47. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, घुघली, जिला महाराजगंज
48. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, मुंडेरवा, जिला बस्ती
49. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, नवाबगंज, जिला गोंडा
50. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट बाराबंकी, जिला बाराबंकी
51. नन्दगंज सिहोरी शुगर कं० लि०, पो०आ० नन्दगंज, जिला गाजीपुर
52. बजाज हिन्दुस्तान लि०, गोलागोकरननाथ, जिला खीरी
53. बजाज हिन्दुस्तान लि०, पलियाकलां, जिला खीरी
54. पारले बिस्कुट प्रा० लि०, परसेंड़ी, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच
55. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, दतौली, तहसील मनकापुर, जिला गोंडा
56. बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, मघाऊरा अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर
57. डालमिया चीनी मिल्स लि०, जवाहरपुर, तहसील सीतापुर सदर, जिला सीतापुर
58. बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, रूधौली, जिला बस्ती
59. बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, कुंडरखी, तहसील और जिला गोंडा
60. बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०, इटारसी मारदा, तहसील उत्तरौला, जिला बलरामपुर
61. उ०प्र० राज्य चीनी निगम लि०, मोहाली, जिला सीतापुर
62. मैसर्स अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, ( न्यू इंडिया शुगर मिल्स), धाडा बुजुर्ग, तहसील-हाटा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश



**उत्तर प्रदेश (पश्चिम)**

1. दि मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद
2. दि सिम्भावली शुगर मिल्स लिमिटेड, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद
3. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट मोहीउद्दीनपुर, जिला मेरठ
4. दोराला शुगर वर्क्स, दोराला, जिला मेरठ
5. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट सकौतीटांडा, जिला मेरठ
6. मवाना शुगर लि0, (यूनिट मारना शुगर वर्क्स), मवाना, जिला मेरठ
7. दि बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, बागपत, जिला मेरठ
8. दि रमाला सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, रमाला, जिला मेरठ
9. एस0बी0ई0सी0 शुगर लिमिटेड, मलकपुर, तहसील बड़ौत, जिला बागपत
10. दि त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, शुगर यूनिट दि अपर इंडिया शुगर मिल्स, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर
11. मंसूरपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर
12. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पो0आ0 रोहनाकलां, जिला मुजफ्फरनगर
13. दि अपर दोआब शुगर मिल्स लि0, शामली, जिला मुजफ्फरनगर
14. दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, तालुका जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर
15. मोनेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट तहसील, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर
16. मवाना शुगर लिमिटेड, (यूनिट तितावी शुगर काम्पलैक्स) तितवी, जिला मुजफ्फरनगर,
17. टिकोला शुगरस मिल्स लिमिटेड, टिकोला तहसील, जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर
18. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, पन्नीनगर, जिला बुलन्दशहर
19. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर
20. विलाई इंडिया लिमिटेड, शुगर डिवीजन (अगोटा शुगर एंड केमिकल्स), अगोटा
21. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देवबंद, जिला सहारनपुर
22. यू0पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, यूनिट सहारनपुर, जिला सहारनपुर
23. किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, सरसावा, जिला सहारनपुर

24. शाकुम्बरी शुगर एंड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोडरपुर (रागर) जिला सहारनपुर
25. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, ननौता, जिला सहारनपुर
26. दया शुगर, नयाबांस, तहसील गागलहारी, जिला सहारनपुर
27. दि यू0पी0 स्टेट शुगर कापो0 लि0, मलियाना, जिला मेरठ
28. बजाज हिन्दुस्तान लि0, किन्नौनी, तहसील व जिला मेरठ
29. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, डोइवाला, जिला देहरादून, उत्तरांचल
30. लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0, इकबालपुर, जिला हरिद्वार, उत्तरांचल
31. उत्तम शुगर मिल्स लि0, गांव लिब्बेरहाडी, जिला हरिद्वार, उत्तरांचल
32. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स प्रा0 लि0, लक्सर, जिला हरिद्वार, उत्तरांचल
33. बजाज हिन्दुस्तान लि0, यूनिट थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर
34. बजाज हिन्दुस्तान लि0, यूनिट भैसाना, जिला मुजफ्फरनगर
35. मवाना शुगर्स लि0 (यूनिट नंगलामल शुगर काम्प्लैक्स), नंगलामल, तहसील और जिला बुलंदशहर
36. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लि0, साबितगढ़, पो0आ0 करोरा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर
37. बजाज हिन्दुस्तान लि0, यूनिट एट गंगनौली, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर
38. सिम्भावली शुगर्स लि0, बृजनाथपुर, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद
39. उत्तम शुगर मिल्स लि0, खैखानी, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर
40. उत्तम शुगर मिल्स लि0, शेरमऊ, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर

[फा. सं. 2 3/2008 एस.पी. II]

अधीर झा, निदेशक (एमडीएफ)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Food and Public Distribution)****ORDER**

New Delhi, the 18th January, 2011

**G.S.R. 35(E)/Ess. Com./Sugar.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:—

1. Short title and commencement:

(a) This order may be called the Sugar (Price Determination for 2010-2011 Production) Order, 2011.

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition:

In the Order, unless the context otherwise requires:—

(a) "Indian Sugar Standards Grade (ISS GRADES)" means the grades represented by the standard sealed samples of sugar in bottles issued by the Director, National Sugar Institute, Kanpur, conforming to the Standards M.-29, S.-29, L.-30, M.-30, S.-30, L.-31, M.-31, S.-31 and SS - 31 as specified by the Central Government.

(b) "Schedule" means a schedule annexed to this Order.

3. Price of Sugar produced in 2010-2011 Season:

The prices as specified in Column 3 of Schedule I or Schedule II, as the case may be, against the zones specified in the corresponding entry in column 2, shall be the prices payable for all the Indian Sugar Standards (ISS) grades of sugar, packed in 'A', Twill new gunny bags and produced in 2010-2011 sugar season by all vacuum pan sugar factories specified in Schedule III, which are required to be supplied to any person, Organization or State Government under sub-clause (1) of clause 2 of the Levy Sugar Supply (Control) Order, 1979 for delivery at buyer's option in (i) railway wagons or (ii) the buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate or factory godowns:

Provided that where a sugar factory is situated at a distance exceeding five kilometers from the nearest railway station or an out agency of the railways or from the godowns outside the factory not connected, the producer may charge additional thirteen paise per quintal of sugar per kilometer beyond five kilometers of the distance between the sugar factory and such railway station or the out agency of the railway

in case of dispatches by rail or between the sugar factory and such godowns in case of delivery ex-godowns.

Explanation – In this Order:-

(a) the prices specified in column 3 of Schedule I and Schedule II do not include the excise duty or additional excise duty in lieu of sale tax or the special excise duty as the case may be which the producer can recover at the rate in force at the relevant time, in addition to the prices as determined under this Order;

(b) the prices specified in column 3 of Schedule I include transport from factory godown and loading, at buyer's option, into railway wagons at the railway station or siding generally used by the producer and including siding or wagons hauling, dunnage and other incidentals;

(c) the prices specified in column 3 of Schedule II includes transport from godowns and loading of sugar, at buyer's option, into carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godowns and includes all other incidentals.

4. The prices determined under this Order shall apply to the sugar produced in the sugar season 2010-2011 and delivered on or after the date of commencement of sugar season, that is, the 1<sup>st</sup> day of October 2010. These are provisional prices. Recoveries on account of excess payment made, if any, or additional payments if due, will be made on finalization of prices.

### SCHEDULE I

Prices for delivery into railway wagons for all ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule III upto a distance of 5 kilometres from the factory.

		(Rupees per quintal)
Sl. No.	Zone	All India Sugar Standards (AISS) Grades of Sugar
(1)	(2)	(3)
1.	ANDHRA PRADESH	1915.58
2.	ASSAM, ORISSA, WEST BENGAL AND NAGALAND	1783.55
3.	BIHAR (NORTH)	2053.58
4.	GUJARAT(SOUTH)	1745.67
5.	GUJARAT(SAURASHTRA)	1962.56
6.	HARYANA	1749.55
7.	NORTH-WEST KARNATAKA	1881.42

8.	REST OF KARNATAKA	1794.52
9.	KERALA, GOA AND COASTAL KARNATAKA	2049.29
10.	MADHYA PRADESH	1908.07
11.	MAHARASHTRA (SOUTH)	1835.94
12.	MAHARASHTRA (NORTH)	1853.19
13.	MAHARASHTRA (CENTRAL)	1813.41
14.	PUNJAB	1797.36
15.	RAJASTHAN	2011.37
16.	TAMILNADU AND PONDICHERRY	1880.11
17.	UTTAR PRADESH (CENTRAL)	1902.45
18.	UTTAR PRADESH (EAST)	1918.75
19.	UTTAR PRADESH (WEST)	1834.17

**NOTE:** Where the Railway Station is beyond 5 kilometres from the factory, an additional amount of Rs. 0.13 per kilometre per quintal of sugar shall be paid.

### SCHEDULE II

Prices for delivery into Buyer's carts, lorries or other means of transport at the factory gate/factory godown for all ISS Grades (excluding Excise Duty) in respect of factories specified in Schedule III.

(Rupees per quintal)

Sl. No.	Zone	All India Sugar Standards (AISS) Grades of sugar
(1)	(2)	(3)
1.	ANDHRA PRADESH	1914.01
2.	ASSAM, ORISSA, WEST BENGAL AND NAGALAND	1781.98
3.	BIHAR (NORTH)	2052.01
4.	GUJARAT (SOUTH)	1744.10
5.	GUJARAT (SAURASHTRA)	1960.99
6.	HARYANA	1747.98
7.	NORTH-WEST KARNATAKA	1879.85
8.	REST OF KARNATAKA	1792.95
9.	KERALA, GOA AND COASTAL KARNATAKA	2047.72
10.	MADHYA PRADESH	1906.50
11.	MAHARASHTRA (SOUTH)	1834.37
12.	MAHARASHTRA (NORTH)	1851.62
13.	MAHARASHTRA (CENTRAL)	1811.84
14.	PUNJAB	1795.79
15.	RAJASTHAN	2009.80
16.	TAMILNADU AND PONDICHERRY	1878.54
17.	UTTAR PRADESH (CENTRAL)	1900.88
18.	UTTAR PRADESH (EAST)	1917.18
19.	UTTAR PRADESH (WEST)	1832.60

**SCHEDULE III**

<b>Sl.No ( 1 )</b>	<b>Name &amp; Location of Sugar Factory ( 2 )</b>
<b><u>ANDHRA PRADESH</u></b>	
1.	The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., P.O. Pithapuram Distt. East Godavari
2.	Shri Sarvaraya Sugar Ltd., P.O. Chelluru, Tal. Ramchandrapuram, Distt. East Godavari.
3.	Nava Bharat Ferro Alloys Ltd., Samalkot, Distt. East Godavari.
4.	Andhra Sugars Ltd., Tanuku, Distt. East Godavari.
5.	The Palakol Cooperative Sugars Ltd., Poolarelli, Palakol, Distt. West Godavari.
6.	VVS Sugars (The Jeypore Sugar Co. Ltd.,) P.O. Chagallu, Distt. West Godavari.
7.	West Godavari Coop. Sugars Ltd., Bhimadole, Taluka Eluru, Distt. West Godavari.
8.	The Andhra Sugars Ltd., Taduvai, Distt. West Godavari.
9.	The Chodavaram Coop. Sugars Ltd., Govada, Distt. Vishakhapatnam.
10.	Anakapalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Anakapalle Distt. Visakhapatnam.
11.	Etikoppaka Coop. Agri. & Indl. Society Ltd. Etikoppaka, Distt. Visakhapatnam.
12.	The Thandava Coop. Sugars Ltd., Payakarapopeta, Distt. Visakhapatnam.
13.	Shri Vijayarama Gajapati Cooperative Sugars Ltd., Kumaram, Tal. Srungavvarapukota, Bhimasinghi, Distt. Visakhapatnam.
14.	Amadalvalasa Coop. Agricultural & Industrial Society Ltd., Amadalvalasa, Distt. Srikakulam.
15.	Varalakshmi Sugars Ltd., Sankil in Rigidi, Amadalavalasa Mandal, Distt. Srikakulam.
16.	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Vuyyuru, Distt. Krishna.
17.	The KCP Sugar & Industries Corporation Ltd., Lakshmipuram, Distt. Krishna.
18.	Delta Sugars Ltd., Hanuman Junction, Dist. Krishna
19.	Nizam Deccan Sugars Ltd., Shakarnagar, Dist. Nizamabad.
20.	The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., Nizamabad, Distt. Nizamabad.
21.	Gayatri Sugars Ltd. Adloor Yellareddy, Sadashivnagar Mandal, Distt. Nizamabad.
22.	The Chittoor Cooperative Sugar Ltd., Chittoor, P.O. Tsavatepalli, Distt. Chittoor
23.	Shri Venketashwara Cooperative Sugar Factory Ltd., Gazulamandayam (Tirupati), Renigunta, Distt. Chittoor.
24.	Shree Vaani Sugars & Industries Ltd., Kummaranatham, Distt. Chittoor.

25. Prudential Mouli Sugars Ltd. at Nindra Village, Teh. Nindra Mandal, Distt. Chittoor.
26. Sudalagunta Sugars Ltd., Butchinaidu Kandriga, Distt. Chittoor.
27. M/s Trident Sugars Ltd., Madhunagar, Zaheerabad, Distt. Medak.
28. Nizam Deccan Sugars Ltd., Taluka & Distt. Medak.
29. Ganapati Sugar Industries Ltd., Kulubgur, Sangareddy Mandal, Distt. Medak.
30. The Nizam Sugar Factory Ltd., Miryalguda, Distt. Nalgonda.
31. The Cuddapah Cooperative Sugar Ltd., Tal. Daulatapuram, Distt. Cuddapah.
32. The Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Kovur, Distt. Nellore.
33. Gayatri Sugar Complex Ltd., Prabhagiri Patnam, Podalakur Mandal, Distt. Nellore.
34. Empee Sugars & Chemicals Ltd., Ayyappareddy Palam, Naidupet Mandalam, Distt. Nellore.
35. Nizam Deccan Sugars Ltd., P.O. Metpalli, Distt. Karimnagar.
36. Nandyal Coop. Sugar Ltd., P.O. Ponnapuram, Nandyal, Distt. Kurnool.
37. Krebs Biochemicals & (I) Ltd. District Guntur.
38. The Nagarjuna Cooperative Sugars Ltd., Guruzala, Distt. Guntur.
39. Madhucon Sugars Ltd., Rajeshwarapuram, Distt. Khammam.
40. Kakatiya Cement Sugars & (I) Ltd., Peruvuncha, Teh. Kallur Mandal, Distt. Khammam.
41. NCS Sugars Ltd., P.B. No. 1, Khairatabad, Hyderabad (location at Lakshayyapeta, Distt. Vizianagaram).
42. Sagar Sugars & Allied Products Ltd., Nelavoy Village, Sri Rangaranapuram Mandal, District Chittoor.
43. M/s G.S.R. Sugar (Pvt.) Ltd., Maggi, Nizamnagar, Kandal, District Nizamabad.

### **ASSAM**

1. The Assam Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Baruabamungaon, Distt. Sibsagar.
2. Cachar Sugar Mills Ltd., P.O. Ratabari, Chargola, Distt. Karimganj.
3. Nowgong Cooperative Sugar Mills Ltd., Kampur, Distt. Nowgong.

### **ORISSA**

1. Jeypore Sugar Co. Ltd., Rayagada, Distt. Koraput.
2. The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., Aska, Distt. Ganjam.
3. The Baragarh Cooperative Sugar Mills Ltd., (Under the Management of Ponni Sugars & Chemicals Ltd.,) P.O. Tora, Baragarh, Distt. Sambalpur.
4. Nayagarh Sugar Complex Ltd., Teh. Nayagarh, Distt. Puri.
5. Badamba Cooperative Sugar Industries Ltd., (Under the Management of Sakti Sugars Ltd.), Teh. Banki, Distt. Cuttack.
6. Western India Sugar & Chemicals Industries Ltd., Dharamgarh, Teh. Dharamgarh, Distt. Kalahandi.

7. Bijayananda Co-op. Sugar Mills Ltd., P.O. Sagarpalli, Deogaou, Distt. Bolangir.
8. Sakthi Sugars Ltd., Haripur, Village Dhankanal Sadar, Distt. Dhankanal.

### **WEST BENGAL**

1. Khaitan Agro. Industries Ltd., Plassey, Distt. Nadia.
2. West Bengal Sugar Industries Development Corpn. Ltd., Ahmedpur, Distt. Birbhum.

### **BIHAR (NORTH)**

1. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Lohat, Distt. Madhubani.
2. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Sakari, Distt. Madhubani.
3. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Ryam, Distt. Darbhanga.
4. New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, Distt. Samastipur.
5. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Samastipur Unit, Distt. Samastipur.
6. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Motipur, Distt. Muzaffarpur.
7. Righa Sugar Company Ltd., Righa, Distt. Sitamarhi.
8. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit. Garaul, Distt. Vaishali.
9. Motihari Chini Udyog Ltd., Leasee of M/s Eastern Sugars Industries Ltd., Motihari, Distt. East Champaran.
10. Motilal Padampat Udyog Ltd., Majhauria, Distt. West Champaran.
11. Champaran Sugar Company Ltd., Chanpatia, Distt. West Champaran.
12. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Lauriya, Distt. West Champaran.
13. Tirupati Sugars Ltd., Bagha, Narainpur, West Champaran.
14. The Oudh Sugar Mills Ltd., , Distt. Narkatiaganj , West Champaran.
15. Harinagar Sugar Mills Ltd., Harinagar, Distt. West Champaran.
16. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Sugauli, Distt. East Champaran.
17. Champaran Sugar Company Ltd., Barachakia, Distt. East Champaran.
18. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. New Sawan, Distt. Siwan.
19. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Siwan, Distt. Siwan.
20. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., P.O. Mirganj, Distt. Gopalganj.
21. Bharat Sugar Mills Ltd., Sidhwalia, Distt. Gopalganj.
22. Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., Sasa Musa, Distt. Gopalganj.
23. The Vishnu Sugar Mills Ltd., P.O. Vishnu Sugar Mills, Gopalganj, Distt. Gopalganj.
24. Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah, Distt. Saran.
25. Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Gararu, Distt. Gaya.
26. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Warisaliganj, Distt. Nawadah.
27. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Banmankhi, Distt. Purnea.
28. The Bihar State Sugar Corporation Ltd., Unit Bihta, Distt. Patna.



**GUJARAT (SOUTH)**

1. Shri Khedut Sahkari Khand Udyog Mandi Ltd., Sardar Bag, Bardoli, Distt. Surat.
2. Shree Madhi Vibhag S. Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Madhi, Distt. Surat.
3. Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakarii mandli Ltd., Chalthan, Distt. Surat.
4. Shree Sayan Vibhag Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan, Distt. Surat.
5. Shree Mahuva Pradesh Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd., Zarvavra, Distt. Surat.
6. Shri Ukai Pradesh Sahakarii khand Udyog Mandli Ltd. at P.O. Paniari, Distt. Surat.
7. Shree Khedut Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd. at Kosamba, Teh. Mangrul, Distt. Surat.
8. Shri Kamrej Vibhag Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd., Kamrej, Distt. Surat.
9. Shree Valod Pradesh Khand Udyog Sahakarii Mandli Ltd., Virpur, Tal. Valod, Distt. Surat.
10. The Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd., Gandevi, Via Bilimora, Distt. Valsad.
11. Shri Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakarii Mandli Ltd., Kalyannagar, P.O. Maroli, Distt. Valsad.
12. Shree Valsad Sahakarii Khand Udyog Mandli Ltd., Parnera-Pardi, Distt. Valsad.
13. Shree Ganesh Khand Udyog Sahakarii mandli Ltd., Desad, Taluka Valia, Distt. Bharuch (Vataria).
14. Shri Revakhand Udyog Sahakarii Mandli Ltd. at & Post Amod, Taluka Amod, Distt. Bharuch.
15. Shri Narmadakhand Udyog Sahakarii Mandli Ltd., Dharikheda, Taluka Nandod, Distt. Bharuch.
16. Vadodara Distt. Cooperative Sugarcane Growers Union Ltd., Gandhara, Distt. Vadodra.
17. Sardar Cooperative Sugar Industries Ltd., Ladhod, tehsil Sankhed, Distt. Vadodra.
18. Shree Govardhan Sugar Industries, Kukarmunda, TK- Nizar, District Surat.
19. M/s Dadra Nagar Haveli Sahakari Khand Udyog Mandli.Ltd., Surangi, Dapada Patelad, UT of Dadra & Nagar Haveli.

**GUJARAT (SAURASHTRA)**

1. Charotar Sahakarii Khand udyog Mandli Ltd., Village Palaj, Taluka Petiad, Distt. Kaira.

2. Shri Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakarii mandli Ltd., Kodinar, Distt. Amreli.
3. Sardar Vallabhai Patel Khand udyog Coop. Societies Ltd., P.O. Dhoraji, Distt. Rajkot.
4. Shri Una Taluka Sahakarii Khand Udyog mandli Ltd., Una (Sorath), Distt. Junagarh.
5. Shree Talala Taluka Sahakarii Khnad udyog Mandli Ltd., P.O. Talala, Distt. Junagarh (Gir.).

### **HARYANA**

1. The Saraswati Sugar Mills P.O. Yamunanagar, Distt. Ambala.
2. The Haryana Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Rohtak, Distt. Rohtak.
3. The Maham Cooperative Sugar Mills Ltd., Maham, Distt. Rohtak.
4. The Panipat Cooperative Sugar Mills Ltd., Panipat, Distt. Panipat.
5. The Karnal Cooperative Sugar Mills Ltd., Karnal, Distt. Karnal.
6. Sonapat Cooperative Sugar Mills Ltd., Sonapat, Distt. Sonapat.
7. Shahbad Cooperative Sugar Mills Ltd., Thaneswar, Distt. Kurukshetra.
8. The Jind Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. & Distt. Jind.
9. The Palwal Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. Palwal, Distt. Faridabad.
10. The Kaithal Cooperative Sugar Mills Ltd., Kaithal, Distt. Kaithal.
11. The Bhuna Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhuna, Tehsil Fatehbad, District Hissar.
12. Piccadily Agro. Industries Ltd., Sector-17 A, SCO.40-41, Chandigarh, location at Indri, Distt. Karnal.
13. Chaudhari Devilal Cooperative Sugar Mills Ltd., Vill - Panniwala Mota, District Sirsa.
14. The Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., Gohana, District Sonapat.
15. Naraingarh Sugar Mills Ltd., Naraingarh, Dist. Ambala.
16. M/s Haryana State Coop. Supply & Marketing Fed'n Ltd., Asandh, Teh. : Asandh, Distt Karnal, Haryana.

### **NORTH WEST KARNATAKA**

1. The Godavari Biorefineries Ltd., Sameerwadi, Mudhol, Distt. Bijapur.
2. The Ugar Sugar Works Ltd., Ugarkhurd, Distt. Belgaum.
3. Shri Malaprabha Coop. Sugar Factory Ltd., Muguthan Hubli, Distt. Belgaum.
4. Shree Doodhaganga Krishna SSK Niyamit, Chikodi, Distt. Belgaum.
5. Raibag SSK Niyamit Taluk Raibag, Distt. Belgaum.
6. The Ghataprabha SSK Niyamit, Gokak, Distt. Belgaum.
7. Shri Halasidhanath SSK Ltd., Nipani, Teh. Chikodi, Distt. Belgaum.
8. Shri Hiranyakeshi SSK Niyamit, Sankeshwar, Distt. Belgaum.
9. Shri Bhagyaxmi SSK Ltd., Mansapur, Taluk Khanapur, Distt. Belgaum.
10. Nandi SSK Ltd., Near Chikka Galagali, Distt. Bijapur.

11. Rayatara SSK Niyamit, Rannanagar TK. Mudhol, Distt. Bijapur.
12. Karnataka SSK Ltd., Haveri, Distt. Dharwad.
13. Renuka Sugars Ltd., Munoli, Tal. Sawadathi, Distt. Belgaum.
14. Prabhulingeshwar Sugar Works Ltd., Siddapur, Distt. Bagalkot.
15. Jam Khandi Sugars Ltd., Hirepadasalagi, Teh. Jamkhandi, Distt. Bijapur.
16. Venkateshwara power Project Ltd., Bedakihal, Taluka chikodi, District Belgaum
17. Nirani Sugars Ltd., Mudhol - 507313, District Bagalkot.
18. Athani Farmers Sugar Factory Ltd., Madabhavi Village, Taluk Athani, District Belgaum.
19. Krishna SSK Ltd., Kokatnur, Teh. Athani, District Belgaum.
20. Gem Sugars Ltd., Kundargi Village, Biligi Taluk, District Bagalkot.
21. Dayamyogi Sri Shiv Kumar Swamiji Sugars Ltd., Hireberur, Taluk Indi, Dist. Bijapur.
22. Gokak Power & Distilleries Ltd., Hanashyal P.G., Tal. Gokak, Distt. Belgaum.
23. Bilagi Sugar Mills Ltd., Badagandi, Taluka Bilagi, District Bagalkot.
24. Someshwar SSK Niamit, Baihongal, District Belgaum.
25. M/s Badami Sugars Ltd., Badami, Dist - Bagalkot
26. Shree Renuka Sugars Ltd., Buralatli, Tk - Athani, Dist.-Belgaum
27. M/s GMR Industries Ltd., Hullatti, P.O. Haliyal, Distt Uttara Kannada.
28. M/s Indian Cane Power Ltd., Uttur, Taluka Mudhol, distt Bagalkot.
29. M/s Vishwandh Sugars Ltd., Belled Bagewadi, Tk. Hukkeri, Distt Belgaum.
30. Shree Dhanlaxmi SSK Niyamit (Lessee M/s GMR Industries Ltd.) Khanapet, Tk. Ramlung, Distt Belgaum.
31. Shree Kedarnath Sugar & Agro (P) Ltd., Jalageri Gaganbudhehal, Post Kerkamatti, Teh. Badami, Distt Bagalkot.
32. M/s Indian Sugar Mfg. Co. Ltd., Havinal, Tk. Indi Distt Bijapur.
33. M/s Sadashiva Sugars Ltd., Nagaral Nainegali, Tal. & district Bagalkot,
34. M/s Mrudagiri SSK Ltd., Gangapur, District: Gadag.

### **REST OF KARNATAKA**

1. Sundari Sugars Ltd., P.O. Kampli Sugar Factory, Distt. Bellary.
2. Siruguppa Sugars & Chemicals Pvt. Ltd., Siruguppa Taluk, Distt. Bellary.
3. Salarjung Sugar Mills Ltd., Munirabad, Distt. Raichur.
4. Gangavati Sugars Ltd., Pragatinagar, Tal. Gangawati, Distt. Raichur.
5. Tungbhadra Sugar Works Pvt. Ltd., Shimoga, Distt. Shimoga.
6. Mysore Paper Mills Ltd., Bhadravati, Distt. Shimoga.
7. Gauribidanaur SSK Ltd., Gauribidanaur, Distt. Kolar.
8. Bidar SSK Ltd., Hallikhed, Distt. Bidar.
9. Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., Hiriya, Distt. Chitradurga.
10. Bhadra SSK Niyamit Doddabathi, Taluk Davangere, Distt. Chitradurga.
11. Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkavada, Davangere Taluk, Distt. Chitradurga.
12. Maheshwara Sugar Ltd., Kollegal, Dist. Mysore.

13. Bannari Amman Sugars Ltd., Alaganchi Village, Tal. Nanjangud, Distt. Mysore.
14. Shreerama SSK Ltd., Chunchanakatte, K.R. Nagar, Distt. Mysore.
15. The Hemavathy SSK Ltd., Hassan, Distt. Hassan.
16. SSK Niyamit, Teh. Aland, Distt. Gulbarga.
17. Pandavapura SSK Ltd., Pandavapura, Distt. Mandya.
18. Mysore Sugar Co. Ltd., Mandya, Distt. Mandya.
19. Chamundeshwari Sugars Ltd., K.M. Doddi, Tal. Madur. Distt. Mandya.
20. The India Sugar & Refineries Ltd., P.O. Chitwadgi, Hospet, Distt. Bellary.
21. Coramandel Sugars Ltd., Makkavalli, Teh. K.R. Pet, Distt. Mandya.
22. Shamnur Sugars Ltd., Duggavathi, Teh. Harapanahalli, Distt. Bellary.
23. Naranja SSK Ltd., Village Chillergi, District Bidar.
24. Mahatma Gandhi Sahakarii Sakhare Karkhana Ltd., Balhalki, District Bidar.
25. SCM Sugars Ltd., Koppa, Maddlur Taluk, District Mandya.
26. Bhavani Khandsari Sugar Ltd., Village Baroor, Tal. & District Bidar.
27. Shree Renuka Sugars Ltd., Havalga, Tk - Afzalpur, Dist-Gulbarga.
28. The Ugar Sugar Works Ltd., Malli, Post Yadrami, Tk. Jewargi, Distt Gulbarga
29. M/s SPR Sugars Pvt Limited, Kanchugarahalli, Bidadi Hobli, Tk. Ramanagarama, District Bangalore.

#### **KERALA**

1. The Cooperative Sugars Ltd., Chittur, Menonpara, P.O. Distt. Palghat.
2. The Travancore Sugar & Chemicals Ltd., Valanjavattam, P.O. Tiruvalla, District Kollam.

#### **GOA**

1. Sanjivani SSK Ltd., Dayanandnagar, Post Tiska, Distt. Goa.

#### **COASTAL KARNATAKA**

1. Dakshina Kannada Sahakarii S. Karkhana Ltd., Mangalore, Tal. & Distt. South Kanara.

#### **MADHYA PRADESH**

1. The Gwalior Sugar Co. Ltd., Dabra, Distt. Gwalior.
2. Jaora Sugar Mills, Jaora, Distt. Ratlam.
3. The Bhopal Sugar Industries Ltd., P.O. & Distt. Sehore.
4. The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., Dalauda, Distt. Mandsour.
5. M.P. State Industries Corporation Ltd., P.O. Mohidpur Road, Distt. Ujjain.
6. Morena Mandal SSK Ltd., Kailaras, Distt. Morena.
7. Malwa SSK Ltd., Barlai (Kashipara), Distt. Indore.
8. Navalsingh SSK Maryadit, Nagal Nagar, Durhanpur, Distt. Khandwa.

9. Girdhari Lal Sugar & Allied Industries Ltd., Narmada Nagar, Ghatwa, Teh. Thikri, Distt. Khargone.
10. Krishak SSK Mayadit, Naryanpura, Teh. Raghogarh, Distt. Guna.
11. Jawaharlal Nehru Sahakari Soot Mill Ltd., Sarvandeve, Distt. Khargone.
12. Bhoramdev Sahakari Sakhar Utpatak Karkhana Maryadit, Tehsil and Distt. Kavardha, Chattisgarh
13. Kareli Sugar Mills Pvt. Ltd, Gadaswara Road, Karoli, District Narsinghpur
14. M/s Shakti Sugar Mills Pvt. Ltd., Kodiya, Teh. Gadarwara, Distt Narsinghpur.
15. M/s Ma Bhagwati Sugar Mills Ltd., Baktara, Distt Sehere.
16. M/s Narmada Sugars Pvt Ltd, Pondar, Distt Narsinghpur.
17. M/s Mahakaushal Sugar & Power Ltd., Bachai, Tk. & Distt Narsinghpur.
18. M/s Ramdev Sugar (P) Ltd., Thaini, Teh. Bankhedi, Distt Honsangabad.
19. M/s Durga Khandsari (Sugar) Mills, Mendrana, Distt Barbana.
20. M/s Maa Mahamaya Sahakari Sakhar Karkhana Maryadit, Ambikapur, Distt: Suryguja, Chattisgarh.

### **MAHARASHTRA (CENTRAL)**

1. Shree Pandurang Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Shreepur, Distt. Solapur.
2. The Saswadmal Sugar Factory Ltd., P.O. Malinagar, Distt. Solapur.
3. Sahakari Maharishi Shankarao Mohite Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Akulj, Distt. Solapur.
4. Shri Shankar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Sadashivnagar, Distt. Solapur.
5. Shree Sidheshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kumathe, P.O. Tikekarwadi, Distt. Solapur.
6. Vithal Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Gursale, Taluk Pandharpur, Distt. Solapur.
7. Bhima Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Sikandar Takli, Teh. Mahol, Distt. Solapur.
8. Bhogawati Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Irle Vairag, Taluka Barsi, Distt. Solapur.
9. Shri Sant Damaji Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shiranadagi, Teh. Karmala, Distt. Solapur.
10. Indira Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Mirajagim, Tehsil Akalkot, Distt. Solapur.
11. Adinath Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Lave Bhalwani, Teh. Karmala, Distt. Solapur.
12. Chandrabhaga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bhalwani, Teh. Pandharpur, Distt. Solapur.
13. The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., Ravalgaon, Distt. Nasik.
14. Girna Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Bhausaheb Nagar, Distt. Nasik.
15. Karamveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ranwad, Taluk Niphad, Distt. Nasik.

16. Kadwa Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Materewadi, Taluka Dindori, Distt. Nasik.
17. Niphad Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Bhausahbnagar, Distt. Nasik.
18. Nasik Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Palse, Distt. Nasik.
19. Vasantrao Dada Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Vithewadi (Lohaner), Distt. Nasik.
20. The Kopargaon Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Kolpewadi, Distt. Ahmednagar.
21. Padma Shri Dr. Vithalrao Vikhe Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Pravaranagar, Distt. Ahmednagar-413706.
22. Ashok Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ashoknagar, P.O. Shrirampur, Distt. Ahmednagar.
23. Shri Ganesh Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ganeshnagar, P.O. Ranjangaon Khurd, Distt. Ahmednagar.
24. The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Tal. Kopargaon, Distt. Ahmednagar.
25. The Rahuri Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Rahuri Factory, Distt. Ahmednagar.
26. The Shrigonda Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Shrigonda, Distt. Ahmednagar.
27. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Amritnagar, Tal. Sangamner, Distt. Ahmednagar.
28. Shree Dnyaneshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bhende, Taluka Newasa, Distt. Ahmednagar.
29. Shri Jagdamba Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Rashin, Teh. Karjat, Distt. Ahmednagar.
30. Shri Vridheshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Vridheshwar Sakhar Karkhana, Taluka Pathardi, Distt. Ahmednagar (Pimpalgaon).
31. The Mula Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Sonai, Taluka Newasa, Distt. Ahmednagar.
32. Parner Taluka Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Parner, Distt. Ahmednagar.
33. Agasti SSK Ltd., Jamgaon, Teh. Akola, Distt. Ahmednagar.
34. Kedareshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bodhegaon, Teh. Shegaon, Distt. Ahmednagar.
35. Indapur Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bijawadi, Taluka Indapur, Distt. Pune.
36. Shri Chhatrapatti Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bhavaninagar, Tal. Indapur, Distt. Pune.
37. The Malegaon Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Malegaon B.K. Distt. Pune.
38. Shree Someshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Someshwarnagar, Distt. Pune.
39. Yeshwant Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Chintamaninagar, P.O. Theur, Distt. Pune.
40. Bhima Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Patas, Taluka Daund, Distt. Pune.
41. Vighnagar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Junnar, Distt. Pune.
42. Rajgad Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Nigade, Tal. Bhore, Distt. Pune.

43. Ghodganga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Nhavare, Teh. Shirur, Distt. Pune.
44. Shri Sant Tukaram Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kasarsai, Tal. Mulshi, Distt. Pune.
45. Bhima Shankar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Pargaon Via Avasari, Teh. Ambegaon, Distt. Pune.
46. Lokmangal Agro Industries Ltd., Vill - Bibi Darphal, Taluk North Solapur, District Solapur.
47. Saikrupa Sakhar Karkhana Ltd., Devdaithan, TK-Shrigonda, Distt. Ahmednagar.
48. Loknete Baburao Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Laxminagar Angar, Taluk Mohol, District Solapur.
49. Nagar Taluka Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Walki, Taluk Nagar, District Ahmednagar.
50. Nira Bhima Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shahji Nagar, Taluk Indapur, District Pune.
51. Sangola Taluka Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Waki (Shivane), Taluk Sangola, District Solapur.
52. Vitthal Rao Shinde Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Gangamaye Nagar, Taluk Madha, District Solapur.
53. Shri Makai SSK Ltd., Bhilarwadi, Tk. Karmala, District Solapur.
54. Kukadi SSK Ltd., Pimpalgaon Pisa, Tk. Shrigonda, District Ahmednagar.
55. Shri Changdeo Sugar Mills Ltd., Changdonagar, District Ahmednagar.
56. Rajaram Bapu SSK Ltd., Wategaon - Surui, Unit No.2, Post Wategaon, Taluk Walwa, District Sangli.
57. Shreenath Mhaskoba Sakhar Karkhana Ltd., Patethan, Tk. Daund, District Pune.
58. Anurag Sugar Mills Ltd., Mewat, Tk - Daund, Dist.- Pune.
59. Baramati Agro Ltd., Shelphalgade, Tk. - Indupur, Dist- Pune
60. M/s Vithal Sugar Mills Ltd., Mhaisgaon, Tk. Madha, Distt Solapur.
61. M/s Bhairavanath Sugar Works Ltd., Sonari, Tk. Paranda, Distt Pune.
62. M/s Lokmangal Sugar Ethanal & Cogeneration Ltd., Bhandar Kavathe, Tk. South Solapur, Distt Solapur.
63. M/s Daund Sugar Mills Ltd., Alegaon, Tk. Daund, Distt Pune.
64. M/s Siddhanath Sugar Mills Ltd., Tirhe, Tk. South Solapur, Distt. Solapur.
65. Gangamai Sugar Industries Ltd., Najik Babelgaon, Post Rakshi, Tal.- Shivgaon, District- Ahmednagar.

### **MAHARASHTRA ( SOUTH )**

1. Shri Bhagwati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shahunagar, Post Parite, Distt. Kolhapur.
2. Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kasaba Bhavada, Distt. Kolhapur.
3. Deshbhakta Ratnappa Kumbhar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ganganagar, Ichalalkaranji, Distt. Kolhapur.
4. Shree Tatyasaheb Kore Warara Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Warnanagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra.

5. Kumbhi Keshri Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kuditre, Tal. Karvir, Distt. Kolhapur.
6. Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bidri, P.O. Mouninagar, Tal. Kagal, Distt. Kolhapur.
7. Shri Datta Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Asrule, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur.
8. Shri Datta Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shirol, Distt. Kolhapur.
9. Daulat Shetakari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Halkarni, Tal. Chandgad, Distt. Kolhapur.
10. Gadhinglaj Taluka Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Gadhinglaj, Distt. Kolhapur.
11. Chhatrapatti Shahu Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kagal, Distt. Kolhapur.
12. Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Hupari, Tal. Hatkangale, Distt. Kolhapur.
13. Ajara Shetakari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Gavase, Teh. Ajara, Distt. Kolhapur.
14. Krishna Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shivanagar, Distt. Satara.
15. Shriram Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Udyog Ltd., Phaltan, Distt. Satara.
16. New Phalthan Sugar Works Ltd., Taluka Phaltan, P.O. Shakhawadi, Distt. Satara.
17. Kisanveer Satara Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bhuinj, Taluka Wai, Distt. Satara.
18. Balasaheb Desai Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Daulatnagar, Marali, Taluka Patan, Distt. Satara.
19. Sahyadri Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Yeshwantnagar, Taluka Karad, Distt. Satara.
20. Ajinkyatra Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shendre, Distt. Satara.
21. Jarandeshwar SSK Ltd., Chimangaon, Teh. Koregaon, Distt. Satara.
22. Rajaram Bapu Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Rajaramnagar Post, Sakharale, Taluka Walwa, Distt. Sangli.
23. Vasantdada Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. & Distt. Sangli.
24. Jath Taluka Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd. At Tippehalli Jath, Taluka Jath, Distt. Sangli.
25. Vishwas Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Yeshwatnagar, Post Chikhali, Taluka Shirala, Distt. Sangli.
26. Hutatma Kisan Ahir Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Walve, Distt. Sangli.
27. Yeshwant Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Nagewadi, Taluka Khanpur, Distt. Sangli.
28. Mahankali Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kavathe Mahankal, Distt. Sangli.
29. Tasgaon Taluka Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Tasgaon, (Turchi Phata), Post Turchi, Taluk Tasgaon, Distt. Sangli.
30. Manganga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Sonarsidhnagar, Distt. Sangli.
31. Sonhira Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Wangi, Tal. Khanpur, Distt. Sangli.



32. Kagal TK Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Himadwade Koulage, Taluk Kagal, Distt- Kolhapur.
33. Ninai Devi Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kukasud, Taluk Shirala, Distt. Sangli.
34. M/s Cane Agro Energy India Ltd., Raigaon, Taluk Khanapur, Distt. Sangli.
35. Rayat Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shewalewadi, Taluk Karad, District Satara.
36. Sharad Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Narande, Taluk Hatkangale, District Kolhapur.
37. Udaysingrao Gaikwad SSK Ltd., Sonawade, District Kolhapur.
38. Kranti SSK Ltd., Kundal, Tal. Palas, District Sangli.
39. Pratapgad SSK Ltd., Kalghar, Tk. Jawali, District Satara.
40. Sarvodaya SSK Ltd., Karandwadi, Tk. Walwa, District Sangli.
41. Mohanrao Shinde SSK Ltd., Mohannagar, Tk. Miraj, District Sangli.
42. Indira Gandhi Bhartiya Mahila Vikas SSK Ltd., Tambale, Tk. Bhudargad, District Kolhapur.
43. Pad. Dr. D.Y. Patilk Sahkari Sakhar Karkhana Ltd., Dnyanshantinagar, Tal. Ganga Bavada, District Kolhapur.
44. Shri Gurudatt Sugars Ltd., Takaliwadi, Tk. Shirol, District Kolhapur.
45. Nalwade Sugar Mills Ltd., Mhalunge, Tk - Chandgad, District - Kolhapur.
46. M/s Jaywant Sugars Ltd., Dhawarwadi, Tk. Karad, District Satara.

### **MAHARASHTRA (NORTH)**

1. Shree Panzarakan Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bhadne, Tal. Sakri, Distt. Dhulia.
2. Sindkheda Sahakari Sakhar Kharkana Ltd. At Degaon, Teh. Sindkheda, Distt. Dhulia.
3. Pushpadanteshwar SSK Ltd., Samsherpur, Tal. Nadurbar, Distt. Dhulia.
4. Sanjay Sahakari Sakhar Kharkana Dhule Sindkheda Amalner Ltd., Vijay Nagar, Tal. & Distt. Dhule.
5. Shirpur Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Dahiwad, Tal. Shirpur, Distt. Dhule.
6. Shree Satpuda Tapi Parisar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shahada, P.O. Purshottamnagar, Distt. Dhulia.
7. Jijamata Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Dusarbid, Tal. Mahkar, Distt. Buldana.
8. Terna Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ternanagar, Taluka Dhoki, Distt. Osmanabad.
9. Tulja Bhawani Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Naldurg, Tal. Tuljapur, Distt. Osmanabad.
10. Gangapur Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Raghunathnagar, Distt. Aurangabad.
11. Sidheshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Sillood, Distt. Aurangabad.
12. The Kannad Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kannad, Distt. Aurangabad.

13. The Vinayak Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Parsoda, Taluka Vaijapur, Distt. Aurangabad.
14. Shri Santh Ek-Nath Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Paithan, Distt. Aurangabad.
15. Shri Namdev Rao B. Gakekar Deogiri Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Phulambri, Tal. & Distt. Aurangabad.
16. Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kalamber, Post Gandhinagar, Distt. Nanded.
17. Shankar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Phulenagar, Teh. Bhokar, Distt. Nanded.
18. Shri Bhaurao Chavan Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Degaon, Teh. & Distt. Nanded.
19. Godavari Manar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Shankarnagar, P.O. Ram Tirath, Tal. Biloli, Distt. Nanded.
20. Jaiwant Patil Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Hadsani, Teh. Hadgaon, Distt. Nanded.
21. Jai Ambika Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Mohan Nagar Kuntur, Teh. Biloli, Distt. Nanded.
22. Shri Shankar Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Village Mangrul, Distt. Yavatmal.
23. Vasant Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Pusad, Distt. Yavatmal.
24. Jai Kisan Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Bodegaon, Teh. Darwha, Distt. Yavatmal.
25. Sudhakar Rao Naik Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Chikhali, Tal. Pusad, Distt. Yavatmal.
26. The Ambajogai Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Ambasakhar, Tal. Ambajogai, Distt. Beed.
27. Jai Bhavani Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Georai, Distt. Beed.
28. Kada Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Teh. Ashti, Distt. Beed.
29. Gajanan Cooperative Sugar Factory Ltd., Taluka & Distt. Beed.
30. Majalgaon Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Nithrud, Teh. Mahalgaon, Distt. Beed.
31. Vaidyanath Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Pangari, Teh. Ambajogai, Distt. Beed.
32. Madhukar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Faizpur, Distt. Jalgaon.
33. Vasant Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Kasoda, Distt. Jalgaon.
34. Belganga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Taluka Chalisgaon, Distt. Jalgaon (Bhoras).
35. Shri Chopada Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Machale, Teh. Chopada, Distt. Jalgaon.
36. Shri Sant Muktabai Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ghodasgaon, Teh. Edlabad, Distt., Jalgaon.
37. Marathwada Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., P.O. Dongarkheda, Taluka Pathari, Distt. Parbhani.
38. The Godavari Dudhana Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Deonandra, Taluka Pathari, Distt. Parbhani.
39. Narsinha Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Lohgaon, Distt. Parbhani.
40. Barashiv Hanuman Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Jawala Bazar, Teh. Basmathnagar, Distt. Parbhani.

41. Purna Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Basmathnagar, Distt. Parbhani.
42. Samarth Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Mahalala, Tal. Ambad, Distt. Jalna.
43. Jalna Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Village Ramnagar, Teh. & Distt. Jalna.
44. Shri Bageshwari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Warphal, Tal. Partur, Distt. Jalna.
45. Jai Jawan Jai Kisan Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Nalegaon, Tal. Ahmedpur, Distt. Latur.
46. Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Killari, Distt. Latur.
47. Manjara Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Tal. Chincholirao, Distt. Latur.
48. Shivajirao Patil Nilangakar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ambulga (B.K.), Tal. Nilanga, Distt. Latur.
49. Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Dhamangaon, Tal. Chandur Rly Stn. Distt. Amravati.
50. Shri Kondeshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ramnagar, Teh. Phubgaon, Distt. Amravati.
51. Mahatama Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Jamani, Tal. Salo, Distt. Wardha.
52. Sahakari Maharishi Late Shri Bapuraoji Deshmukh SSK Ltd., Vela, Teh. Hinganghat, Distt. Wardha.
53. The Wainganga Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Teh. Maholi Road, Distt. Bhandara.
54. Balaji Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Masalapen, Tal. Risod, Distt. Akola.
55. Akola Zilla Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Vizare, Distt. Akola.
56. Shriram Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Babdeo Teh. Mauda, Distt. Nagpur.
57. Ramganesh Gadkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Saoner, Distt. Nagpur.
58. Natural Sugar & Allied Industries Ltd., Ranjani, Tal. Kallam, Distt. Osmanabad.
59. Balaghat Shetkari Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Ujana, Teh. Ahmedpur, Distt. Latur.
60. Dwarkadhish Sakhar Karkhana Ltd., Shavare, Taluk Bagalan, Distt. Nasik.
61. Sharangdhar Sugar Mills Ltd., Ukali, Taluka Mehkar, District Buldana.
62. Anuradha Sugar Mills Ltd., Shrimunsaji, Maharajnagar, Taluk Waru (Dhad), District Buldana.
63. Chhatrapati Sambhaji Raje Sakhar Udyog Ltd., Dindayalnagar, Chittepimpalgaon, Taluk & District Aurangabad.
64. Jai Mahesh Sugar Industries Ltd., Pawarwadi, Taluk Majalgaon, District Beed.
65. Padamshri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil SSK Ltd., At-Kothi, Taluk Kaij, District Beed.
66. Pannageshwar Sugar Mills Ltd., Pangaon, Taluk Renapur, District Latur.
67. Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Raosaheb Nagar, Post Sipora Bazar, Taluk Bhokardan, District Jalna.
68. Dr. Baba Saheb Ambedkar Sahakari Sakhar Kharkana Ltd., Keshegaon, District Osmanabad.
69. Shri Vithal SSK Ltd., Murum, Taluk Omerga, District Osmanabad.
70. Vikas SSK Ltd., Vaishalinagar, Nivli, Taluk and District Latur.
71. Yogeshwari Sugar Industries Ltd., Laxminagar, At Limba, Taluk Pathari, District Parabhani.
72. Shivshakti Shetkari SSK Ltd., Washi (Tandulwadi), Tk. Washi, District Osmanabad.

73. Shambu Mahadev Sugar & Allied Industries Ltd., Havargaon, Tk. Kallam, District Osmanabad.
74. Shri Sant Shiromani Maruti Maharaj SSK Ltd., Maulinagar, Belkund, Tk. Ausa, District Latur.
75. Shivshakti Adiwasi & Megaswargiya SSK Ltd., Sujanpur, Tehsil Khamgaon, District Buldana.
76. Priyadarshini Shetkari SSK Ltd., Tondar, Tk. Udgir, District Latur.
77. Jai Shivshankar SSK Ltd., Sheshnagar, Manjari, Tk. Mukhed, District Nanded.
78. Raver Taluka SSK Ltd., Omkareshwar, Karjod, Tk. Raver, District Jalgaon.
79. Hiwaramai Sugar Industries Ltd., Mondhale, Tk. Pachora, District Jalgaon.
80. Narsinha SSK Ltd., Indapur, Tk. Washi, District Osmanabad.
81. Rana SSK Ltd., Niwada, Tal. Renapur, District Latur.
82. Bhimashankar Sugar Mills Ltd., Pargaon, Tal. Washi, District Osmanabad.
83. Vaishnavi Sugar (India) Ltd., Shiv Bhaskar Nagar, at Post Shendurjan, Tal. Sindkheel Raja, District Buldana.
84. Adiwasi SSK Navapura – Nandurbar Vibhag Ltd., Dokane, Tal. Navapura, District Nadurbar.
85. Purti Sakhar Karkhana Ltd., Village Khursepur Bali, The. Umred, District Nagpur.
86. Vidarbha Sugar Mills Pvt. Ltd., Kurha, Tal. Tiwasa, Distt. Amravati.
87. Shri Saibaba Sugars Ltd., Shivani (Bk), Tk – Ausa, District – Latur
88. Dharashiv Sahkar Karkhana Ltd, Chorakhali, Tk. – Kallamb, Dist – Osmanabad.
89. M/s Sagar SSK Ltd., Tirthpuri, Tk. Ghansavangi, Distt Jalna.
90. M/s Samrudhi Sugars Ltd., Renuka Nagar, Tk. Ghansavangi, Distt Jalna.
91. M/s Mukteshwar Sugars Mills Ltd., Ghamori, Tk. Gangapur, Distt Aurangabad.
92. M/s Gangakhed Sugar & Energy Pvt. Ltd., Makhani, Tq Gangakhed, District Parbhani.

#### **NAGALAND**

1. Nagaland Sugar Mills Co. Ltd., Dimapur, District Kohima.

#### **PUNJAB**

1. The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., Morinda, Distt. Ropar.
2. Wahid Sandhar Sugars Ltd., Phagwara, Distt. Kapurthala.
3. Bhagwanpura Sugar Mills Ltd., Dhuri, Distt. Sangrur.
4. The Bhogpur Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhogpur, Distt. Jalandhar.
5. Nakodar Cooperative Sugar Mills Ltd., Nakodar, Distt. Jalandar
6. The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., Nawanshahr, Dist. Nawanshahr.
7. The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala, Dist. Gurdaspur.
8. Gurdaspur Cooperative Sugar Mills Ltd., Panjar, Distt. Gurdaspur.
9. Zira Cooperative Sugar Mills Ltd., Zira, Dist. Ferozepur.
10. Fazilka Cooperative Sugar Mills Ltd., Fazilka, Distt. Ferozepur.
11. Budhewal Cooperative Sugar Mills Ltd., Doraha, Teh. Samrala, Distt. Ludhiana.
12. The Jagraon Cooperative Sugar Mills Ltd., Hathoor, Kamalpur, Distt. Ludhiana.

13. Taran Taran Cooperative Sugar Mills Ltd., Seron, Teh. Taran Taran, Dist. Amritsar.
14. The Ajnala Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhalapind, Teh. Ajnala, Distt. Amritsar.
15. Rana Sugars Ltd., Butter-Saviyan, Teh. Baba-bakala, Distt. Amritsar.
16. The Budhlada Cooperative Sugar Mills Ltd., Budhlada, Teh. Mansa, Distt. Bhatinda.
17. The Faridkot Cooperative Sugar Mills Ltd., Rori, Chatsinghwala, Distt. Faridkot.
18. Oswal Sugars Ltd., Mukerian, Distt. Hoshiarpur.
19. Patiala Cooperative Sugar Mills Ltd. Village Rakhra, Distt. Patiala.
20. Piccadily Sugars & Allied Industries Ltd., Patran, Teh. Samana, Distt. Patiala.
21. Nahar Industrial Enterprises Ltd., (Unit Nehar Sugars), Amloh, Teh. Nabha, Distt. Patiala.
22. The Punjab State Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. Dasuya, Distt. Hoshiarpur.
23. Markfed Sugar & Allied Industries, Malout, District Muktsar.

### **RAJASTHAN**

1. The Mewar Sugar Mills Ltd., Bhupalsagar, Distt. Chittorgarh.
2. The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar, Distt. Sriganganagar.
3. Shri Keshoraipatan Sahakarii Sugar Mills Ltd., Keshoraipatan, Distt. Bundi.

### **TAMILNADU & PONDICHERRY**

1. EID Parry (India) Ltd., P.O. Pugalur Sugar Factory, Distt. Tiruchirapalli.
2. E.I.D Parry (India) Ltd., Pettaivayasalai, Distt. Tiruchirapalli.
3. Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Kattur, Ialgudi, Distt. Tiruchirapalli.
4. Perambalur Sugar Mills Ltd., Eraiyur, Taluka perambalur, Distt. Tiruchirapalli.
5. EID Parry (India) Ltd., Nellikuppam, Distt. South Arcot.
6. M/s. Rajashree Sugars & Chemicals Ltd., Mundiapakkam District South Arcot.
7. Shree Ambika Sugars Ltd., Pennadam, Distt. South Arcot.
8. Kallakurichi Coop. Sugar Mills Ltd., P.O. Moongilthuripattu, Tal. Kallakurichi, Distt. South Arcot.
9. The Kallakurichi - II Cooperative Sugar mills Ltd., Kachirayapalayam, Taluka Kallakurichi, Distt. Villupuram R.P.
10. Chengalrayan Cooperative Sugar Mills Ltd., Periyasevalai, Ulundarpet Taluk Distt. South Arcot.
11. M.R. Krishnamurthy Cooperative Sugar Mills Ltd., Sethiathope, Teh. Chidambaram, Distt. South Arcot.
12. Tamilnadu Sugar Corporation Ltd., Pandiarajapuram, Distt. Madurai.
13. The National Cooperative Sugar Mills Ltd., Metupatti, Alanganallur, Distt. Madurai.
14. Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Periyakulam, Distt. Madurai.
15. Amravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapuram, Distt. Coimbatore.

16. The Thiru Arooran Sugars Ltd., Kollumangudi Village in Peralam/Agarathirumalam Firka in Nannilam Taluk, Distt. Nagai Quid-e-Milleth.
17. Arignar Anna Sugar Mills Ltd., Kurungulam, Distt. Thanjavur.
18. Nadippisai Pulavar K.R. Ramasamy Sugar Mills Ltd., Mayiladuthurai, Distt. Thanjavur.
19. Thiru Arooran Sugars Ltd., Papanasam, Distt. Thanjavur.
20. Shree Ambika Sugars Ltd., Kottur T.K. Thiruvudaimaruthur, Distt. Thanjavur.
21. The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, Ambur, Distt. North Arcot.
22. Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kethandapatti, Village Vaniambadi Taluk, Distt. North Arcot.
23. The Vellore Cooperative Sugar Mills Ltd., Ammundi, P.O. Vellore Sugar Mills, Dist. North Arcot.
24. Tamilnadu Cooperative Sugar Federation Ltd., Cheyyar/Wandiwash, Distt. North Arcot.
25. Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Karaipoondi, Teh. Polur, Distt. Thiruvannamalai Sambuvarayar.
26. The Madurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., Padalam, Distt. Chengalpattu.
27. S.V. Sugar Mills Ltd., Waljabad Firka, Distt. Chengalpattu MGR.
28. Tiruttani Cooperative Sugar Mills Ltd., Tiruttani, Distt. Chengalpattu.
29. The Sakhti Sugars Ltd., Sakhtinagar, P.O. Erode, Distt. Periyar.
30. Bannari Amman Sugars Ltd., Village Alathukombai, Sathyamanglam, Distt. Erode.
31. The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, Distt. Salem.
32. Ponni Sugars & Chemicals Ltd., Pallipalayam, Tal. Tiruchengode, Distt. Salem.
33. Dharmapuri Distt. Cooperative Sugar Mills Ltd., Thimmanahalli Palacode, Distt. Dharmapuri.
34. Subramania Shiva Cooperative Sugar Mills Ltd., Teh. Harur, Distt. Dharmapuri.
35. Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Tal. Sivagiri, Distt. Tirunelveli.
36. Sakhti Sugars Ltd., Tal. Sivganga, Distt., Pasumpan Muthuraalingam.
37. EID Parry (India) Ltd., Arantangi, Distt. Pudukottai.
38. Arunachalam Sugar Mills Ltd., Malapambady Village, Taluk & District Thiruvannamalai.
39. Kothari Sugars & Chemicals Ltd., Sathamangalam, Tk - Ariyalur, Dist - Perambalur
40. Sakti Sugars Ltd., Poonduri Sermur, Tk . & Dist - Erode
41. New Horizon Sugar Mills Pvt. Ltd., Sagrur (Aniyur), P.O. Kandamanglam, Distt. Pondicherry.
42. The Pondicherry Cooperative Sugar Mills Ltd. at Lingareddipalayam, Mannidipat Commune.
43. M/s Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Semmendu, Tk. Gingee, Distt Villupuram.
44. M/s Dharani Sugars & Chemicals Ltd., Kalyanaller, Sankarapuram Tk. Distt Villupuram

45. M/s Dhanalakshmi Srinivasan Sugar Pvt. Ltd. , Udumbyani, Distt Perambalur.
46. M/s Bannari Amman Sugars Ltd., Village Kolundanpatti, Thandarampatu Tk. Distt Tiruvannamalai.
47. M/s Empee Sugars & Chemicals Ltd., Iddaikkal, Tk-Ambasamundram, District Tirunelveli, Tamilnadu.

### **UTTAR PRADESH (CENTRAL)**

1. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., P.O. Satha, Hardeoganj, Distt. Aligarh.
2. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Badaun, Distt. Badaun.
3. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bijnor, Distt. Bijnor.
4. Upper Ganges Sugar & Industries Ltd., Seohara, Distt. Bijnor.
5. The Dhampur Sugar Mills Ltd., Dhampur, Distt. Bijnor.
6. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Chandpur, Distt. Bijnor.
7. Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Sneh Road, Najibabad, Distt. Bijnor.
8. Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Bundki, Distt. Bijnor.
9. The Ajudia Sugar Mills Raja-Ka-Sahaspur, Distt. Moradabad.
10. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Amroha, Distt. Moradabad.
11. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Gajraula, Distt. Moradabad.
12. Wave Industries Pvt. Ltd., Dhanaura, Distt. Moradabad.
13. Venus Sugar Ltd., Mazhawali (Bhartra), Teh. Sambal. Distt. Moradabad.
14. Dhampur Sugar Mills Ltd., Asmoli, Teh. Sambhal, Distt. Moradabad.
15. Dewan Sugars Ltd., Agwanpur, Distt. Moradabad.
16. Rudra Bilas Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Bilaspur, Distt. Rampur.
17. The Kesar Enterprises Ltd., Baheri, Distt. Bareilly.
18. Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Semi-Khera, Teh. & Distt. Bareilly.
19. J.K. Industries Ltd., Mirganj, Distt. Bareilly.
20. Oswal Overseas Ltd., Nawabganj, Distt. Bareilly.
21. Rosa Sugar Works Ltd., (Prop. Oudh Sugar Mills Ltd.) Rosa, Distt. Shahjahanpur.
22. Kisan Sahakarii Chini Mills, Tilhar, District Shahjahanpur.
23. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Powayan, Distt. Shahajahanpur.
24. L.H. Sugar Factories Ltd., Pilibhit, Distt. Pilibhit.
25. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., Majhola, Distt. Pilibhit.
26. Bisalpur Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Bisalpur, Distt. Pilibhit.
27. Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Teh. Pooranpur, Distt. Pilibhit.
28. The Shervani Sugar Syndicate Ltd., Neoli Sugar Factory, P.O. Neoli, Distt. Etah.
29. Kitply Industries Ltd., Rupapur, Distt. Hardoi.
30. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Kaimganj, Distt. Farukhabad.
31. Chhata Sugar Co. Ltd., P.O. Chhata, Distt. Mathura.
32. Ghatampur Sugar Co. Ltd., Teh. Ghatampur, Distt. Kanpur.
33. The U.P State Sugar Corpn. Ltd., Unit Rampur, Dist. Rampur.
34. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Bareilly, Dist. Bareilly.
35. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Hardoi, Dist. Hardoi
36. Anand Agrochem India Ltd., Gopi-Lodhua, Teh. KOL, Sikandara Rao, Distt. Aligarh.

- 37.DSM Sugar Kashipur, Unit DSM Agro Products Ltd., Kashipur, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 38.The Bazpur Co-op. Sugar Factory Ltd., Bazpur, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 39.Kichha Sugar Co-op. Ltd., Kichha, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 40.Kisan Saha. Chini Mills Ltd., Rajapur-Puranpur, Nadeshi, P.O. Jaspur, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 41.Kisan Sahakarii Chini Mills., Sitarganj, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 42.Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Gadarpur, Distt. Nainital, Uttranchal.
- 43.Bajaj Hindustan Ltd., Unit Bilai, Tehsil Haldaur, Distt. Bijanur.
- 44.Dwarikesh Sugar Industries Ltd., Bahadurpur, Tehsil Dhampur, District Bijanur.
- 45.Bajaj Hindustan Ltd., Unit at Barkhera, Distt. Pilibhit.
- 46.The Gobind Sugar Mills Ltd., P.O. Aira Estate, Distt. Kheri.
- 47.The Sarjoo Sahakarii Chini Mills., Belrayan, Distt. Kheri.
- 48.Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Sampurnanagar, Teh. Nigashan, Distt. Lakhimpur Kheri.
- 49.DCM Shriram Consolidated Ltd., Ajbapur, Block Pasgaon, Distt. Lakhimpur Kheri.
- 50.Bajaj Hindustan Ltd., Unit at Khambarkhera, Tehsil & Distt. Lakhimpur Kheri.
- 51.Triveni Engg. & Industries Ltd., Chandanpur, P.O. Chapna, Teh. Haranpur, Dist. JP Nagar
- 52.DSCL Sugar Ltd, Hariawan, Dist. Hardoi
- 53.DSCL Sugars Ltd, Loni dist. Hardoi
- 54.Triveni Engg. & Industries Ltd, Raninangal, Teh-Thakurdwara, Dist-Moradabad
- 55.Triveni Engineering & India Ltd, Milak Naranpur, P.O. Dadiyal, Teh - Swar, Dist - Rampur
- 56.Dhampur Sugar Mills Ltd., Rajpura, Teh - Gunnaur, Dist - Badaun
- 57.Balrampur Chini Mills Ltd, Kumbhi, Teh - Golagokarannath, Dist.- Lakhimpur Kheri
- 58.Rana Sugars Ltd, Belwara Teh & Dist -Moradabad
- 59.Dalmia Chini Mills Ltd, Nigohi, PO Aroli, Dist - Shahjahanpur
- 60.Dwarikesh Sugar (I) Ltd, Bhagwanpur Fulwa, Th - Faridpur, Dist - Bareilly
- 61.Bajaj Hindustan Ltd, Maqsoodapur, Teh - Powayan, Dist - Shahjahanpur
- 62.Balrampur Chini Mills Ltd., Gularia, Teh - Gogakasnath, Dist - Lakhimpur Kheri
- 63.Uttam Sugar Mills Ltd, Pudrikhurd, Teh - Najibabad, Dist - Bijnor
64. M/s The Baghauli Sugar & Distilleries Ltd., Bikapur, Baghauli P.O., Tal. & Distt Hardoi.

#### **UTTAR PRADESH (EAST)**

1. The Oudh Sugar Mills Ltd., Hargaon, Distt. Sitapur.
2. The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., Biswan, Distt. Sitapur.
3. Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Mahmoodabad, Distt. Sitapur.
4. Dalmia Cement (Bharat) Ltd., (Unit Ramgarh Chini Mills), Ramgarh, Teh. Misrikh, Distt. Sitapur.
5. Kamlapur Sugar & Industries Ltd., Kamlapur, Distt. Sitapur.
6. The United Provinces Sugar Co. Ltd., Seorahi, Distt. Padrauna.



7. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Baitalpur, Distt. Deoria.
8. Cawnpore Sugar Works Ltd., P.O. Gauribazar, Distt. Deoria.
9. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Deoria, Distt. Deoria.
10. The Kanoria Sugar & General Mfg. Co. Ltd., Captainganj, Distt. Padrauna.
11. The UP State Sugar Corporation Ltd., P.O. Rajabazar, Unit Khadda, Distt. Padrauna.
12. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Lakshmiganj, Distt. Padrauna.
13. Triveni Engg. & Industries Ltd., Unit. Ramkola, Distt. Padrauna.
14. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Ramkola, Distt. Padrauna.
15. Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna, Distt. Padrauna.
16. Cawnpore Sugar Works Ltd., Kathkuiyan, Distt. Deoria.
17. M/s Bajaj Hindusthan Sugar & Industries Ltd., Pratappur, Distt. Deoria.
18. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bhatni, Distt. Deoria.
19. Saraya Sugar Mills Pvt. Ltd., Sardarnagar, Distt. Gorakhpur.
20. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Pipraich, Distt. Gorakhpur.
21. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Siswabazar, Distt. Maharajganj.
22. Swadeshi Mining & Manufacturing Co. Ltd., Anandnagar, Distt. Maharajganj.
23. J.H.V. Sugar Corporation Ltd., Gadaura, Teh. Nichlaul, Distt. Maharajganj.
24. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. & Distt. Basti.
25. Govindnagar Sugar Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti.
26. Khalilabad Sugar Mills Pvt. Ltd., Khalilabad, Distt. Basti.
27. The Balrampur Chini Mills Ltd., Babhnan, Distt. Gonda.
28. Balrampur Chini Mills Ltd., Balrampur, Distt. Gonda.
29. Tulsipur Sugar Co. (a unit of Balrampur Chini Mills Ltd.,) Tulsipur, Distt. Gonda.
30. Indo-Gulf Industries Ltd., Maizapur, Distt. Gonda.
31. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Jarwal Road, Distt. Bahraich.
32. Sravasthi Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Nanpara, Distt. Bahraich.
33. Chilwaria Sugar & Chemicals Ltd., Chilwaria, Distt. Bahraich.
34. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit. Burhwal Distt. Barabanki.
35. M/s Rauzagaon Mills, (a Unit of Balrampur Chini Mills Ltd.,) Distt. Barabanki.
36. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Shahganj, Distt. Jaunpur.
37. Kamalapat Motilal Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Motinagar, Distt. Faizabad.
38. Kashi Sahakarii Chini Mills Ltd., Aurai, Distt. Varanasi.
39. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Rasra, Distt. Ballia.
40. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Sathiaon, Distt. Azamgarh.
41. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Ghosi, Distt. Mau.
42. Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Daryapur, Distt. Rai Bareilly.
43. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Sultanpur, Avadh.
44. Balrampur Chini Mills, Haidergarh, District Barabanki.
45. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Chittaunli, District Padrauna.
46. U.P. Cooperative Sugar Factories Federation Ltd., Dhuriapar, Block Urwa, The Golabazar, District Gorakhpur.

47. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Ghugli, District Maharajganj.
48. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Munderwa, District Basti.
49. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Nawabganj, District Gonda.
50. U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Unit - Barabanki, District Barabanki.
51. Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., P.O. Nandganj, District Ghazipur.
52. Bajaj Hindustan Ltd., Golagokarannath, Distt. Kheri.
53. Bajaj Hindustan Ltd., Paliakalan, Distt. Kheri.
54. Parle Biscuits Pvt. Ltd., Parsendi, Tehsil Kaisarganj, District Baharaich.
55. Balrampur Chini Mills Ltd., Datauli, The. Mankapur, Distt. Gonda.
56. Balrampur Chini Mills Ltd., Mghaura Akbarpur, Distt. Ambedkarnagar.
57. Dalmia Chini Mills Ltd, Jawaharpur, Teh - Sitapur Sadar, Dist - Sitapur
58. Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd, Rudhau, Dist - Basti
59. Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd, Kundarkhi, Teh & Dist - Gonda
60. Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd, Itari Marda, Teh - Utraula, Dist - Balrampur
61. UP State Sugar Corporation Ltd., Mohali, Dist - Sitapur
62. M/s Oudh Sugar Mills Ltd., (New India Sugar Mills) Dhada Bujurg, Tehsil-Hatta, District Kushinagar (UP).

### **UTTAR PRADESH (WEST)**

1. The Modi Industries Ltd., Modinagar, Distt. Ghaziabad.
2. The Simbhaoli Sugar Mills Pvt. Ltd., Simbhaoli, Distt. Ghaziabad.
3. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Moihuddinpur, Distt. Meerut.
4. Daurala Sugar Works, Daurala, Distt. Meerut.
5. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit: Sakhoti-Tanda, Distt. Meerut.
6. Mawana Sugars Ltd., (Unit Marana Sugar Works), Mawana, Distt. Meerut.
7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., Bagpat, Distt. Meerut.
8. The Ramala Sahakarii Chini Mills Ltd., Ramala, Distt. Meerut.
9. SBEC Sugar Ltd., Malakpur, Teh. Baraut, Distt. Bagpat.
10. The Triveni Engineering Works Ltd., Sugar Unit, The Upper India Sugar Mills, Khatauli, Distt. Muzaffarnagar.
11. Mansurpur Sugar Mills Ltd., Mansurpur, Distt. Muzaffarnagar.
12. U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Rohana Kalan, Distt. Muzaffarnagar.
13. The Upper Doab Sugar Mills Ltd., Shamli, Distt. Muzaffarnagar.
14. The Ganga Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., The. Jansath, Distt. Muzaffarnagar.
15. Monnet Industries Ltd., Un, Teh. Kairana, District Muzaffarnagar.
16. Mawana Sugars Ltd., (Unit Titawi Sugar Complex), At Titawi, Distt. Muzaffarnagar.
17. Tikaula Sugar Mills Ltd., Tikaula Teh. Jansath, Distt. Muzaffarnagar.
18. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Panninagar, Distt. Bulandshahr.
19. Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd., Anoopshahr, Distt. Bulandshahr.
20. Willard India Ltd., Sugar Division (Agauta Sugar & Chemicals), Agauta,

21. Triveni Engg. & Industries Ltd., Deoband, Distt. Saharanpur.
22. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Saharanpur, Distt. Saharanpur.
23. Kisan Coop. Sugar Factory Ltd., Sarsawa, Distt. Saharanpur.
24. Shakumbhari Sugar & Allied Industries Ltd. at Todarpur (Raghar), Distt. Saharanpur.
25. The Kisan Sahakarii Chini Mills Ltd. Nanauta, Distt. Saharanpur.
26. Daya Sugar, Nayabans, Tehsil Gagalheri, Distt. Saharanpur.
27. The U.P. State Sugar Corpn. Ltd., Maliana, District Meerut.
28. Bajaj Hindustan Ltd., Kinoni, Teh. & District Meerut.
29. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Doiwala, Distt. Dehradun, Uttranchal.
30. Lakshmi Sugar Mills Co. Ltd., Iqbalpur, Distt. Haridwar, Uttranchal.
31. Uttam Sugar Mills Ltd., Village Libberhadi, Distt. Haridwar, Uttranchal.
32. Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaksar, Distt. Haridwar, Uttranchal.
33. Bajaj Hindustan Ltd., Unit Thana Bhavan, Distt. Muzaffarnagar.
34. Bajaj Hindustan Ltd., Unit Bhaiana, Distt. Muzaffarnagar.
35. Mawana Sugars Ltd., (Unit Nanglamal Sugar Complex), Nangalmal, Tehl & Distt. Meerut.
36. Triveni Engineering and Industries Ltd., Sabitgarh, P.O. Karora, Teh-Khurja, Distt. Bulandshahr.
37. Bajaj Hindustan Ltd., Unit at Gangnauli, Tehsil Deoband, Distt. Saharanpur.
38. Simbholi Sugars Ltd., Brijnathpur, Teh- Hapur, Dist - Gaziabad
39. Uttam Sugar Mills Ltd., Khaikher, Teh. & Dist.-Muzaffarnagar
40. Uttam Sugar Mills Ltd., Shermau, Teh.-Nakur, Dist-Saharanpur

[F. No. 2-3/2008-SP.-II]

ADHIR JHA, Director (SDF)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 36(अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 3 की उप धारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (क) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी(2009-10 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2011 है।

(ख) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चीनी (2009-10 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 2010 में -

(क) अनुसूची III में

**आंध्र प्रदेश**

(i) क्रम संख्या 27 में दि निजाम चीनी फैक्टरी लिमिटेड, पीओ डिदगी, ता. जहीराबाद,

जिला मेडक के स्थान पर मै0 ट्रिडेंट शुगर्स लिमिटेड, मधुनगर, जहीराबाद, जिला मेडक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

#### उत्तर प्रदेश (मध्य)

(ii) क्रम संख्या 61 में बजाज चीनी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मगसूदपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहांपुर के स्थान पर बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, मगसूदपुर, तहसील पवाया, जिला शाहजहांपुर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

#### उत्तर प्रदेश (पूर्व)

(iii) क्रम संख्या 62 में मै0 दि बघौली चीनी एवं डिस्टिलरीज लिमिटेड, बिकापुर, बघौली, पो0आ0 तहसील एवं जिला हरदोई के स्थान पर मैसर्स अवध शुगर मिल्स लिमिटेड, यूनिट न्यू इंडिया शुगर मिल्स, धाडा बुजुर्ग तहसील हाटा, जिला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 35 में मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के स्थान पर मै0 रोजागांव चीनी मिल्स, (बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की एक इकाई) जिला बाराबंकी पढ़ा जाए।

#### उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

(v) क्रम संख्या 33 में शब्द 'पीलीभीत' के स्थान पर शब्द 'मुजफ्फरनगर' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

#### महाराष्ट्र (दक्षिण)

(vi) क्रम संख्या 15 में श्रीराम सहकार साखर कारखाना लिमिटेड, फाल्टन, जिला सतारा के स्थान पर श्रीराम जवाहर शेतकारी सहकारी साखर उद्योग लिमिटेड, फाल्टन, जिला सतारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

#### महाराष्ट्र (उत्तर)

(vii) क्रम संख्या 89 में शब्द 'धानाशिव' के स्थान पर शब्द 'धाराशिव' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 90 में शब्द 'चीनी' और 'जैना' के स्थान पर क्रमशः शब्द 'सागर' और 'जालना' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 91 में शब्द 'जैना' के स्थान पर शब्द 'जालना' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 92 के बाद निम्न चीनी मिल का नाम सम्मिलित किया जाएगा:-

93. मै0 गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मखानी, तालुका गंगाखेड़, जिला परभनी, महाराष्ट्र।

#### उत्तर पश्चिम कर्नाटक

(xi) क्रम संख्या 32 के बाद निम्न चीनी मिल का नाम सम्मिलित किया जाएगा:-

33. मैसर्स सदाशिव शुगर्स लिमिटेड, नगराल नैनेगली, ताल. और जिला बागलकोट, कर्नाटक।

#### शेष कर्नाटक

(xii) क्रम संख्या 28 नंबर के बाद, निम्न चीनी मिल का नाम सम्मिलित किया जाएगा:-

29. मेसर्स एसपीआर शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड कंचुगराहल्ली, बिडाडी हुबली, तालुका रामनगरम, जिला बैंगलोर, कर्नाटक

#### तमिलनाडु और पांडिचेरी

(xiii) क्रम संख्या 46 के बाद निम्न चीनी मिल का नाम सम्मिलित किया जाएगा:-

47. मेसर्स इम्पी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, इडाइक्कल, तालुका अम्बासमुंदरम, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

#### गुजरात (दक्षिण)

(xiv) क्रम संख्या 18 के बाद गुजरात (दक्षिण) में निम्नलिखित चीनी मिल का नाम जोड़ा जाएगा:-

19. मैसर्स दादरा नगर हवेली सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, सुरांगी, दापड़ा पटेलाड, दादरा व नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश

[ फा. सं. 2 3/2008 एस.पी. II ]

अधीर झा, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना दिनांक 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. संख्या 527(अ)/आ.व./चीनी द्वारा जारी की गई थी और भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 21 जून, 2010 में प्रकाशित की गई थी।

**ORDER**

New Delhi, the 18th January, 2011

**G.S.R. 36(E)/Ess. Com./Sugar.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :-

1. Short title and commencement.- (a) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 2009-2010 Production) Amendment Order, 2011.

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar (Price Determination for 2009-2010 Production) Amendment Order, 2010,-

(a) in Schedule III

**ANDHRA PRADESH**

(i) against serial No.27 relating to The Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Didgi, Tal. Zaheerabad, Distt. Medak shall be substituted by M/s Trident Sugars Ltd, Madhunagar, Zaheerabad, District: Medak.

**UTTAR PRADESH (CENTRAL)**

(ii) against serial No.61 relating to Bajaj Sugar & Industries Ltd, Magsudhpur, Teh-Powayan, Distt - Shahjahanpur shall be substituted by Bajaj Hindustan Ltd, Maqsoodapur, Teh-Powayan, District: Shahjahanpur.

**UTTAR PRADESH (EAST)**

(iii) against serial No.62 relating to M/s The Baghauli Sugar & Distilleries Ltd., Bikapur, Baghauli, P.O. Tal. & Distt Hardoi shall be substituted by M/s Oudh Sugar Mills Ltd., Unit: New India Sugar Mills, Dhada Bujurg, Tehsil - Hata, District: Kushinagar (UP).

(iv) against serial No.35 relating to M/s Dhampur Sugar Mills Ltd., is to be read as M/s Rauzagaon Chini Mills, (a unit of Balrampur Chini Mills Ltd.,) Distt Barabanki.

**UTTAR PRADESH (WEST)**

(v) against serial No.33, the word 'Pilibhit' shall be substituted by the word 'Muzaffarnagar'.

**MAHARASHTRA (SOUTH)**

(vi) against serial No.15 relating to Shiram Sahakar Sakhar Karkhana Ltd., Phaltan, District: Satara shall be substituted by Shriram Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Udyog Ltd., Phaltan, District: Satara.

**MAHARASHTRA (NORTH)**

(vii) against serial No.89, the word 'Dhanashiv' shall be substituted by the word 'Dharashiv'.

(viii) against serial number 90, the words 'Sugar' and 'Jaina' shall be substituted by the words 'Sagar' and 'Jalna' respectively.

(ix) against serial number 91, the word 'Jaina' shall be substituted by the word 'Jalna'.

(x) after serial number 92, the name of the following sugar mill shall be inserted:-

93. M/s Gangakhed Sugar & Energy Pvt. Ltd, Makhani, Tq Gangakhed, District: Parbhani, Maharashtra.

**NORTH WEST KARNATAKA**

(xi) after serial number 32, the name of the following sugar mill shall be inserted:-

33. M/s Sadashiva Sugars Ltd., Nagara Nainegali, Tal. & District: Bagalkot, Karnataka.

**REST OF KARNATAKA**

(xii) after serial number 28, the name of the following sugar mill shall be inserted:-

29. M/s SPR Sugars Pvt Limited, Kanchugarahalli, Bidadi Hobli, Tk. Ramanagarama, District: Bangalore, Karnataka.

**TAMILNADU AND PONDICHERRY**

(xiii) after serial number 46, the name of the following sugar mill shall be inserted:-

47. M/s Empee Sugars & Chemicals Ltd., Iddaikkal, TK-Ambasamundram, District: Tirunelveli, Tamilnadu.

**GUJARAT (SOUTH)**

(xiv) after serial number 18 relating to Gujarat (South), the name of the following sugar mill shall be inserted:-

19. M/s Dadra Nagar Haveli Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Surangi, Dapada Patelad, UT of Dadra & Nagar Haveli.

[F. No. 2-3/2008-SP.-II]  
ADHIR JHA, Director

**Note:** Principal Notification was issued vide Notification No. G.S.R No. 527(E)/Ess.Com./Sugar dated 25<sup>th</sup> June 2010 and published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated 21<sup>st</sup> June 2010.